

फाइटर के मेकर्स से
नाराज है दीपिका...

SHARE	
सेंसेक्स	: 71,847.57
निफ्टी	: 21,658.60

SARAFI	
सोना	: 5,970
चांदी	: 78.00

(नोट : सोना 22 केरट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

हत्याकांड के 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा

RANCHI : अमार अंसारी की हत्या मामले में 3 दोषियों तौकीर खान, छोटू खान और मोहमद इसराफी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर न्यायक मोहमद सज्जाद की अदालत ने यह सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था। हत्या का यह मामला साल 2018 का है। 29 दिसंबर 2018 की शाम को अमार अंसारी अचानक दोस्त तौकीर अंसारी के साथ घर से निकला था जिसके दूसरे दिन रातु के हाजी चौक पर अमार अंसारी की शव बरामद हुआ था। बताया गया था कि पुरानी रजिश्न को लेकर आरोपियों ने अमार अंसारी की हत्या कर दी थी। मामले में मृतक के पिता के बयान पर रातु थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

झारखंड में राहुल की न्याय यात्रा फरवरी में

RANCHI : झारखंड में राहुल गांधी की न्याय यात्रा फरवरी माह में होगी। इसे लेकर शिद्यूल जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी यात्रा कांग्रेस का गढ़ रहे इलाकों से गुजरेंगी। यात्रा कोडरमा होते हुए झारखंड में प्रवेश करेंगी। वहीं आठ दिनों तक राहुल गांधी झारखंड में रुकेंगे। सिमडेगा होते हुए उनकी यात्रा ओडिशा निकल जाएगी। जानकारी के अनुसार, राहुल की यात्रा कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूँटी, गुमला और सिमडेगा होते हुए ओडिशा निकल जाएगी। कांग्रेस के कई कदमबर नेता यात्रा को अपने जिले में ले जाने की मुहिम में लगे हुए हैं। कई नेता चाहते हैं कि वे अपने जिले में राहुल की यात्रा गुजर इसके लिए जोड़-तोड़ में लगे हैं। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे।

शादी से इंकार करने पर प्रेमिका को मारकर दफनाया

LOHARDAGA : लोहरदगा जिला के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित जीबांग थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की न सिर्फ हत्या कर दी, बल्कि साक्ष्य छिपाने के लिए शव को बोरे में बंद कर जंगल में दफना दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। शव का शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। आरोपित को भी शुक्रवार को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने हत्या के बाद शव को जंगल में दफनाने में उपयोग में लाए गए कुदाल को भी बरामद कर लिया है।

कोयला कारोबारी को ताबड़तोड़ मारी 8 गोलियां, मौत

CRIME REPORTER RANCHI :

रातु थाना क्षेत्र स्थित पिरा आस्थापुरम इलाके में गुरुवार की सुबह दस बजे अपराधियों ने कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी। अभिषेक को जख्मी हालत में मेडिका ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कारोबारी को आठ गोली लगी थी। अपराधियों ने 15 राउंड से अधिक फायरिंग किया था। पुलिस का कहना है कि अभिषेक श्रीवास्तव आस्थापुरम में रहता है। कारोबारी गुरुवार की सुबह अपने घर से निकलकर फॉर्च्युनर कार जेच 01 डीके 0018 से बचरा स्थित अपने कार्यालय के लिए निकला था। घर से दौ सो मीटर की दूरी पर पहुंचते ही रिंग रोड की ओर से स्कॉर्पियो एमएच बीसी 0711 में सवार पांच अपराधी पहुंचे

घर से निकलते ही दो सौ मीटर की दूरी पर नकाबपोश अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम

जख्मी हालत में मेडिका ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान ही गई मौत

सुरेश केडिया के लिए करता था काम, फुटेज निकालकर पुलिस कर रही है छापेमारी

पांच अपराधियों ने पहले की रेकी, 15 राउंड से अधिक फायरिंग किया



6 रातु में अपराधियों द्वारा कोयला कारोबारी की गोली मारकर हत्या मामले में झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मराठी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कि राजधानी रांची की लवर कानून व्यवस्था की फिर पोल खुल गई। अपराधियों ने हत्या के लिए नाहन एमएम

स्कॉर्पियो से पहुंचे थे सभी अपराधी

पुलिस ने घटना स्थल पर स्थित कई दुकानदारों से पूछताछ किया तो पता चला कि जिस स्कॉर्पियो में अपराधी सवार थे वह पहले भी एक राउंड आ चुके थे। इसके अलावा एक बाइक सवार भी बार बार आना जाना कर रहा था। अपराधियों के द्वारा पहले रेकी किया गया इसके बाद अभिषेक श्रीवास्तव को गोली मारा गया। हत्या के लिए जिस स्थान का चयन किया गया था वह संकीर्ण है। अपराधियों को पता था कि अभिषेक की गाड़ी वहां धीरे होगी। इस वजह से अपराधियों ने उस जगह का चयन किया। अपराधियों ने हत्या के लिए नाहन एमएम

फिस्टल और सेवन व्हाइट स्विच एमएम का रिस्टल का प्रयोग किया है। घटना स्थल पर स्थित सुप्रिया जेनरल स्टोर के संचालक और अन्य लोगों ने बताया कि बाइक सवार युवक अभिषेक की गाड़ी से आगे निकला इसके तुरंत ही बाद घटना हो गई। पुलिस का कहना है कि अभिषेक को कोयला कारोबार का काम विरासत से मिला था। मृतक अभिषेक के पिता स्व. सचिंद्र श्रीवास्तव सीसीएल बचरा में टेकेदारी का काम करते थे। बचरा में ही पले बड़े अभिषेक अपने छोटे भाई विवेक के साथ मिलकर कोयला लिफ्टिंग का काम करता था।

और कारोबारी के गाड़ी के सामने खड़ा कर दिया। पांच अपराधी उतरे और तबातोड़ फायरिंग करने लगे। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी रिंग रोड की ओर भाग निकले। पुलिस ने घटना स्थल के

समीप लगे कई जगहों का सीसीटीवी फुटेज निकाला है। फुटेज से ही पुलिस को अपराधियों

का गाड़ी का नंबर मिला है। फुटेज के आधार पर पुलिस अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है।

झारखंड नगर निगम के चुनाव का रास्ता साफ तीन सप्ताह में अधिसूचना जारी करे सरकार : HC

SPECIAL REPORTER RANCHI :

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को ये आदेश दिया। झारखंड हाईकोर्ट में निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गयी थी। याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को ये आदेश दिया और निकाय चुनाव को लेकर दाखिल याचिका निष्पादित कर दी। इस संबंध में निरन्तरमान पार्थद रोशनी खलखो और अरुण झा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने बहस की।

पार्थद रोशनी खलखो ने दायर की थी याचिका

निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्थद रोशनी खलखो VS झारखंड सरकार मामले में उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी याचिका पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सुनवाई की। इस मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। जवाब में सरकार द्वारा विकास किशन राव गवली VS महाराष्ट्र सरकार की रिट याचिका संख्या 980/2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय/पंचायत चुनाव कराए जाएं। इस जवाब पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह ने सरकार के जवाब पर जवाब दाखिल किया। उन्होंने

निकाय चुनाव कराने को लेकर दाखिल की गयी याचिका पर हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला, ट्रिपल टेस्ट कराकर ही चुनाव कराए जाएं

जवाब पर याचिकाकर्ता ने कहा सरकार 74वें व अन्य प्रावधानों का कर रही उल्लंघन



संविधान की मूल अवधारणा का हनन

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत में कहा कि सरकार विकास किशन राव गवली VS महाराष्ट्र सरकार याचिका का जिम्मे तो कर रही है, लेकिन सुरेश महाजन VS मध्य प्रदेश की रिट याचिका संख्या 278/2022 का जिम्मे नहीं कर रही है, न ही अपने जवाब में इसको लाया है क्योंकि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सरकार को आबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट

कराकर ही निकाय/पंचायत चुनाव कराना है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव ही नहीं कराए जाएं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में चुनाव नहीं कराना संविधान की मूल अवधारणा का हनन है। इसलिए आबीसी आरक्षण कर चुनाव करना एक प्रक्रिया है लेकिन इसके कारण चुनाव नहीं कराना गलत है। इधर, चुनाव की तारीख के ऐतान के हाईकोर्ट के आदेश बाद सभी ने राहत की सांस ली है।

साल 2020 से ही पेंडिंग है चुनाव

झारखंड में साल 2000 से ही 14 नगर निकायों के चुनाव लंबित हैं। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, मेदिनीनगर, गढ़वा, चतरा, मधुपुर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, मिहिराज, आदित्यपुर नगर निगम, चिरकुडा, फुसरो, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रामगढ़, चाईबासा के अलावा कपली, नगर उदारी, हुस्नाबाद, छत्रपुर, लातोहार, डोमवारा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, खूँटी, बुडू और सरायकेला-खरसावा का भी निकाय बॉर्ड भंग कर दिया गया है। यहां बता दें कि साल 2020 के मई महीने में ही देवघर, चास नगर निगम, धनबाद के अलावा विशाखपुर, झुमरी तिलैया, गोमिया, चक्रधरपुर नगर परिषद व कोडरमा, बड़की सरैया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा व महगामा नगर पंचायत का कार्यकाल पूरी हो गया था। जबकि उसी साल मई महीने में ही बाकि 34 नगर निकायों का कार्यकाल भी पूरा हो गया था। फिलहाल निकायों का कार्य धिकारियों की देखरेख में हो रहा है।

बच्ची का लगातार पीछा करना, घूरना या जबरन बात करना भी यौन अपराध : HC

RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी बच्ची को लगातार या बार-बार पीछा करना, घूरना या जबरन संर्षर्ष करने की कोशिश करना भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आने वाला अपराध है। ऐसा मामला प्रोटेक्टशन ऑफ़ वाइल्ड फ़ॉर्म सेक्सुअल ऑफेंस (पॉवेल) एक्ट 2012 की धारा 11 (4) के तहत संज्ञेय है। झारखंड हाई कोर्ट ने चतरा जिले की एक स्कूली छात्रा के यौन उत्पीड़न के

कहा कि यह सरकार 74वें एवं अन्य प्रावधानों का उल्लंघन तो कर ही रही है, साथ ही सरकार अब आधे-अधूरे जवाब के साथ

वह छात्रा से मिलने और जबरन बात करने की प्रयास करता था। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद निचली अदालत में आरोपी शिक्षक के खिलाफ चार्ज फ़ॉर्म किए जाने को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस सुभाष चंद की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिक्षक की याचिका को खारिज कर दिया और उसके कृत्य को पाँचवें एक्ट के अंतर्गत यौन उत्पीड़न का मामला करार दिया।

अदालत को भी अंधेरे में रख कर दिग्भ्रमित कर रही है।

नाबालिक के साथ चाचा ने किया दुष्कर्म, अरेस्ट छात्रा ने स्कूल टीचर को सुनाई पूरी आपबीती

CRIME REPORTER RANCHI :

रिशतों को शर्मसार करने वाली घटना तुपुदाना क्षेत्र में घटी है। जहां चाचा ने नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। नाबालिग छात्रा ने हिम्मत करके स्कूल में टीचर को सारा मामला बताया तो मामला सामने आया। टीचर ने मामले की जानकारी तुपुदाना पुलिस को दी। पॉइंता की शिकायत पर तुपुदाना प्रभारी मीरा सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्ची का बयान लेकर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी नीरज सुमेश कुंडूलना को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।



ऐसे खुला मामला

नाबालिक को उसके पिता अपनी मामी के घर छोड़कर मजदूरी करने के लिए पंजाब गया है। नाबालिक पिता के मामी को दादी बोलती है, और उसके घर में ही रहकर स्कूल जाती है। इसर कुछ दिनों से वह डरी, सहमी और खोई खोई रहती थी। गुरुवार को टीचर ने बच्ची को काफ़ी डरा-डरा देखा उसकी आंख भी सूजे हुए थे। बच्ची से प्यार से पूछताछ किया तो उसने टीचर को बताया कि दादी का बेटा नीरज सुमेश प्रतिदिन दास पीकर आता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शिरोध करने पर उसकी मायपीट भी करता है, और रात में ही घर के समीप कब्रिस्तान में ले जाकर छोड़ देता है।

विनोद सिंह के रोसपा टावर स्थित ग्रिड कंसल्टेंट में ईडी का छापा अबतक 36.99 लाख कैश व 21 गोलियां बरामद

CRIME REPORTER RANCHI :

मेन रोड के रोसपा टावर स्थित ग्रिड कंसल्टेंट में ईडी ने छापेमारी की। गुरुवार को विनोद सिंह के ग्रिड कंसल्टेंट में ईडी की टीम कागजातों की जांच की। इससे पहले बुधवार को ईडी ने कार्रवाई करते हुए ग्रिड कंसल्टेंट को सील कर दिया था। बताया जा रहा है, कि ईडी की छापेमारी से पहले विनोद सिंह का कर्मचारी राकिश कुमार कई दस्तावेज लेकर फरार हो गया। बता दें कि साहिबगंज जिले में अवैध खनन मामले को लेकर बुधवार को ईडी की टीम ने 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने विभिन्न आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, रिर्काई और रुपये की नकदी बरामद की। साहिबगंज के डीसी राम निवास यादव के कैप कार्यालय से 7.25 लाख रुपये सहित 36.99 लाख रुपये बरामद किये गये। इसके अतिरिक्त साहिबगंज के डीसी राम निवास यादव के



रोसपा टावर स्थित ग्रिड कंसल्टेंट के बाहर तैनात सीआरपीएफ के जवान।

साहिबगंज डीसी की बढ़ेंगी मुश्किलें अवैध कारतूस व सैलरी ने फंसाया

झारखंड के एक और आईएएस अफसर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव बुधवार को ईडी की रेड के बाद जांच के दायरे में आ गए हैं। अवैध कारतूस, रिश्वत के पैसे और सैलरी तीनों के फेर में साहिबगंज डीसी फंसा गए हैं। जाकार की अनुसार ईडी के द्वारा शुक्रवार को साहिबगंज डीसी से पूछाच के लिए समन जारी किया सकता है।

रामनिवास यादव झारखंड के तीसरे आईएएस अधिकारी हैं, जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इससे पहले पूजा सिंघल और छीरे रंजन ईडी के शिकंजे में आकर जेल में बंद हैं। अगले दो दिनों में ईडी दाखर में रामनिवास यादव से पूछताछ की जाएगी। अवैध खनन मामले में ईडी ने अब तक 51 ठिकाने पर छापेमारी की है और आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

आवासीय परिसर से 9 एमएम बोर के 19 कारतूस, .380 एमएम के 2

कारतूस और 45 फिस्टल के 5 खाली खोखे भी बरामद किये गये।

डॉ शुक्ला माहांती बनी ओडिशा के राज्यपाल की अकादमिक सलाहकार

JAMSHEDPUR : कोल्हाण विश्वविद्यालय की पूर्व कुलापति डॉ शुक्ला माहांती को ओडिशा के राज्यपाल सुचय दास ने अपना एकेडमिक सलाहकार नियुक्त किया है। इस आशय की अधिसूचना ओडिशा राजभवन से जारी

हो चुकी है। डॉ शुक्ला 16 जनवरी (खरमास के बाद) नई ज़िम्मेवारी संभालेंगी। डॉ.

शुक्ला मोहंती का नाम झारखंड के जाने-माने शिक्षाविदों में शामिल हैं। डॉ शुक्ला माहांती यूजीसी, एनसीटीई, नैक टीम में अहम जिम्मेवारी निभा चुकी हैं। डॉ. मोहंती लंबे समय तक जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल रहें हैं। डॉ. माहांती तीन वर्षों तक कोल्हाण विश्वविद्यालय की प्रोवीसी फ़िर वर्ष 2017 में कोल्हाण विश्वविद्यालय की वीसी पद पर योगदान दिया। इस दौरान डॉ. माहांती के लीडरशिप में बेपटरी हुई कोल्हाण यूनिवर्सिटी को पटरी पर लौटी। हालांकि इसके बाद वे पुनः जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल बनीं और यहीं से सेवानिवृत्त हो गईं। जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज को यूजीसी से सेंटर फॉर एक्सीलेंस, नैक का ए ग्रेड, ऑटोनॉमस कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी दर्जा दिलाने में डॉ शुक्ला माहांती की बड़ा योगदान रहा है। अर्थशास्त्री डॉ शुक्ला माहांती की करिअर की शुरुआत पटना के गर्दनीबाग राजकीय महिला कॉलेज से हुई। उस समय उनके पति आरजन मोहंती वहां पर एसडीओ पद पर पदस्थापित थे। आईएएस पति आरजन मोहांती के सहयोग व अपनी कार्यकुशलता के बल पर डॉ. माहांती सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रायर्ण चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फुट होगी।

तीन मजिला होगा मंदिर, प्रथम तल पर होगा राम दरबार, 392 खंभे और 44 द्वार होंगे

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य गर्भगृह में विराजेगे रामलला

AGENCY AYODHYA :

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान राम अपने बालरूप में विराजेगे। मंदिर तीन मंजिला होगा। प्रथम तल पर राम का दरबार होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंदिर निर्माण को लेकर यह जानकारी साझा की है। इसमें मंदिर की विशेषताओं के साथ-साथ मंदिर में श्रद्धालुओं की क्षमता को लेकर भी जानकारी दी गई है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक, अयोध्या में निर्माणधीन श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई (पूर्व से पश्चिम) 380 फुट, चौड़ाई 250

380	250	161
फुट होगी लंबाई	फुट होगी चौड़ाई	फुट होगी ऊंचाई



फुट तथा ऊंचाई 161 फुट रहेगी। मंदिर तीन मंजिला होगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फुट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे और 44

25000 क्षमता का होगा दर्शनार्थी सुविधा केंद्र

25 हजार क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर एवं विक्रिस्ता की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में चानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टेबल आदि की सुविधा भी रहेगी। मंदिर का निर्माण पूर्णतया भारतीय परम्परानुसार एवं स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यटन-जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70 प्रतिशत क्षेत्र सदा हरित रहेगा। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुवेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है।

देवताओं तथा देवताओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंहद्वार से होगा। मंदिर के द्वार होंगे। मंदिर में 5 मंडप- नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप होंगे। खंभों एवं दीवारों में देवी-

सर्दियों में कैसे बचाएं अपने दिल को

बदलते लाइफ स्टाइल के इस दौर में हार्टअटैक के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पहले लोगों का ऐसा मानना था कि 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग ही इसकी चपेट में आते हैं, परन्तु अब ऐसा नहीं रह गया है। 30 से 40 साल के लोगों में भी इसका खतरा होता है। वैसे तो हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है परन्तु जाड़े में ऐसे मरीजों का औसत दर ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण जाड़े में खून की नलियों का सिकुड़ना है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रांची के डॉक्टर संजय सिंह का कहना है कि जाड़े में खून की नलियां ज्यादा सिकुड़ती हैं। जब खून की नलियां सिकुड़ने लगेंगी तब रक्त का प्रवाह धीरे-धीरे कम होने लगेगा, जिससे हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है।

बचाव के उपाय - डॉक्टर संजय के अनुसार जब ठंड ज्यादा बढ़ जाए तो उससे बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सुबह टहलने वाले लोग मौसम के अनुकूल अपने समय में बदलाव करें। ज्यादा सुबह न निकलें। ज्यादा दूरी तक न टहलें। जो लोग ब्लडप्रेशर, हार्ट, शुगर आदि के मरीज हैं वे डॉक्टर से जरूर सलाह लें।

खाने में क्या लें - मौसमी फल, सलाद एवं आंवले जरूर लें। सलाद में भी प्याज एवं टमाटर ज्यादा से ज्यादा लें।

लक्षण - जब अपने शरीर में अप्रत्याशित बदलाव महसूस करें। जैसे ज्यादा पसीना आना, घबराहट, चक्कर आना एवं सीने में दर्द महसूस होना। पेट खराब एवं उल्टी होना ठंड लगने के लक्षण हैं। जैसे ही इसका अहसास हो, डॉक्टर के पास तुरंत जाएं।



वेडिंग डाइट प्लान

फिट रहना हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन होने वाली दुल्हन के लिए अपनी सेहत और फिटनेस पर ध्यान देना अनिवार्य है। दौड़भाग, शादी की तैयारियां और तनाव के चलते डाइट पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फोर्टिस हॉस्पिटल की चीफ डाइटेशियन किरण दलाल और वलीनिकल न्यूट्रिशनलिस्ट निधि सरीन बता रही हैं भावी दुल्हन अपनी डाइट का प्लान कैसे करे कि वजन नियंत्रित रहे....

आमतौर पर लड़कियों का वजन शादी से पहले तीन कारण से बढ़ता है- भागदौड़, तनाव और लगातार पार्टी। इसी तरह शादी के बाद वजन बढ़ने के तीन मुख्य कारण हैं- प्रेग्नेंसी, शादी के बाद परिवार, घर और अन्य जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो जाना कि खानपान पर ध्यान न दे पाना, पति के साथ उनकी तरह ही पोशन लेना, जाने-अनजाने वे एक्स्ट्रा कैलोरी ले लेती हैं। एक बार फेट शरीर पर चढ़ने लगता है तो उसे रोकना काफी मुश्किल होता है। बेहतर होगा अगर पहले से ही खानपान को कुछ आदतों पर अमल किया जाए और डाइट प्लान बनाया जाए। अगर आप शादी से पहले और बाद में अतिरिक्त वजन को हटाना चाहती हैं तो यहा दी गई बातों पर गौर फरमाएं।

शादी से पहले

- अपने दिन की शुरुआत नींबू मिले गर्म पानी से करें। इसमें कश किए हुए पुदीने के पत्ते भी मिला सकती हैं।
- जब भूख लगे सूप या जूस पिएं।
- अगर आप कैलोरी में कंट्रोल करना चाहती हैं तो सबसे पहले चीनी, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री और प्रोसेस्ड फूड को अपने आहार से हटाएं।

- रोजाना के हिसाब से अपना लक्ष्य बनाएं। प्रतिदिन आपको 1,600 कैलोरी मिलनी चाहिए, लेकिन इससे कम करने की कोशिश करें। यह ध्यान रखें कि दिनभर में आपको कम से कम तीन मील्स और दो स्नेक्स मसलन फल या रोस्टेड नट्स या फिर स्टीम्ड फर्मेन्टेड फूड लेने हैं।
- दिन की शुरुआत के लिए ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है। इसमें मीठे से बचें। लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दें। एक-दो सर्विंग मल्टीग्रेन सीरियल, स्पाउटस या बीस और कटे हुए फल लें। इससे आपको ब्रेकफास्ट से लगभग 300 कैलोरी मिलेगी। बाकी कैलोरी आपको लंच और डिनर से मिलनी चाहिए।
- लंच/डिनर में होलग्रेन सीरियल, दालें या ग्रिल्ड फिश या चिकेन के एक टुकड़े के साथ लो फेट प्रोबायोटिक दही, सलाद और एक बोल स्टीम्ड रंगीन सब्जियां लें।
- शादी से एक महीने पहले अचानक पांच किलो वजन घटाना भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा चाहती हैं तो इसके लिए आपको शादी से छह महीने पहले अपने आहार पर ध्यान देना होगा। इसका सीधा असर आपके बाल और त्वचा पर पड़ेगा।
- अच्छी त्वचा के लिए गाजर, एप्रिकॉट, पीले और नारंगी रंग के फल व सब्जियां खाएं। पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों को प्राथमिकता दें। टमाटर खाएं, उसमें लाइकोपीन पाया जाता है।
- अखरोट खाएं, इसमें ओमेगा फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो बालों को चमकदार और त्वचा को बेहतर बनाता है।

- ब्रेकफास्ट एक साथ करें। जिसमें एक बाउल फर्स्ट्स, मूसली या फिर ओटमील हो।
- लंच में हरी सब्जियों वाला सूप जरूर लें। नॉन वेजेटेरियन हैं तो प्रॉन्स को प्राथमिकता दें।
- उस समय कतई न खाएं, जब आप तनाव या गुस्से में हों।
- ब्लैक कॉफी, जंक फूड, चाय से जहा तक हो सके दूर रहें। रिफाईंड प्रोडक्ट से बचें।
- पार्टनर के साथ एक्सरसाइज जरूर करें। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से दिल की सेहत अच्छी रहती है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लडप्रेशर नियंत्रित रहता है। डिनर के बाद रोजाना एक घंटा टहलने का लक्ष्य बनाएं।
- एक-दूसरे के पोशन को मैच न करें, क्योंकि पुरुषों को दिनभर में अलग कैलोरी और स्त्रियों को भिन्न कैलोरी की जरूरत होती है। पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक कैलोरी की जरूरत होती है।
- जो भी खाएं पौष्टिक हो, लेकिन खाने की मात्रा हमेशा ध्यान में रखें।
- सब कुछ खाएं, लेकिन सीमित मात्रा में ताकि आप फिट और स्वस्थ रहें। संतुलित डाइट लें। खाने पर नियंत्रण का यह मतलब नहीं कि आप एक्सरसाइज करना छोड़ दें। साथ-साथ वह भी जरूरी है।



डांस करके घटाइए वजन

डांस के दौरान हाथ-पैरों के साथ ही पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। डांस करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होता है, साथ ही शरीर की मांसपेशियों पर भी काफी खिंचाव पड़ता है, जो स्वस्थ बनाए रखता है। मोटापे से ग्रस्त वे लोग, जिन्हें योगा और जिम जाना अच्छा नहीं लगता है, डांस के द्वारा मोटापे पर नियंत्रण पा सकते हैं। जी हां, डांस करने से मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही इससे पूरे शरीर की कसरत भी हो जाती है। यह खुद को फिट रखने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे शरीर के हर एक अंग की अच्छी कसरत हो जाती है। हर रोज डांस करने से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। डांस का दिमाग पर भी अनुकूल असर पड़ता है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक बना रहता है। जो लोग थोड़ी देर तक ही सही लेकिन नियमित डांस करते हैं, उनको मोटापे की समस्या नहीं होती और वे स्वस्थ बने रहते हैं। डांस फ्लोर पर कम से कम पांच मिनट डांस करने मात्र से शरीर की तीस कैलोरी ऊर्जा बर्न हो जाती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जो लोग कम उम्र में ही डांस करना शुरू कर देते हैं, उन्हें कम तनाव होता है और उनकी सेहत फिट बनी रहती है।

मन को जोड़ें सांसों से

मन को काबू में करने का मतलब है अपनी अनियंत्रित विचारशैली को नियंत्रित करना। मन को सांसों से जोड़िए। प्राणवायु से जुड़ते ही बेलगाम मन पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। अपने विचारों को रोकने का प्रयास करें। विचार रुकते ही मन धीमा होगा, इसे फिर सांसों से जोड़ दें। मन का सांस से गहरा संबंध है। मन सारी इंद्रियों का स्वामी है और सांस मन का। इसलिए ध्यास के नियंत्रण से हम चित्त को स्थिर करके आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब भी बेचैनी हो, मन अशांत हो, तनाव हो, तो पद्मासन में बैठकर सांस भीतर खींचे, उसे थोड़ी देर भीतर ही रोके, फिर धीरे-धीरे छोड़ दें। ऐसा प्रयोग दिन में दो-तीन बार करने से आप काफी सहज महसूस करेंगे।

एलोवेरा बनेगा किडनी का सुरक्षा कवच

वनस्पतियों में छिपे औषधीय गुणधर्म हजारों साल से जीवन को संजीवनी देते रहे हैं, लेकिन उनके अनुसंधान पर परिणामी काम नहीं हुआ। अंग्रेजी दवाओं की भेंट चढ़ती जिंदगी में फिर से जान फूंकने के लिए चिकित्सा जगत आयुर्वेद की शरण में खड़ा है। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलोजी विभाग में गिलोय के बाद अब एलोवेरा पर चल रहे एक शोध में इसे किडनी रोगों पर अत्यंत लाभकारी पाया गया है। चरक संहिता में भी एलोवेरा को औषधीय गुणों से लवरेज बताया गया है, किंतु वैज्ञानिक शोध पर आधारित पुष्टि की कमी रही। फार्माकोलोजी विभाग की एमडी की छात्रा डॉ. शालिनी वीरानी ने चूहों पर किए गए एक शोध में पाया कि एलोवेरा के सेवन से एक माह में उनकी किडनी पूरी तरह ठीक हो गई।

महंगी डायलिसिस से मिलेगी निजात

किडनी रोगियों की संख्या बढ़ने से चिकित्सा के समक्ष एक कठिन चुनौती है। एलोपैथिक में किडनी रोगियों को डायलिसिस पर रखा जाता है, जो महंगा होने के साथ-साथ साइड इफेक्ट भी करता है। एलोवेरा से किडनी रोगों में चमत्कारिक सुधार के संकेत से अब विभाग ट्रायल का दूसरा चरण शुरू करेगा। बाद में इसके पेटेंट के लिए आवेदन किया जाएगा।



सर्दी-जुकाम-खासी को ऐसे दें शिकस्त

सर्दियों का मौसम आम तौर पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, किंतु यदि आप कफ विकार से ग्रस्त है तो इससे आप सर्दियों के पूरे मौसम में जुकाम-खासी व सांस रोग से परेशान हो सकते हैं। प्रस्तुत हैं, इन तकलीफों से निजात पाने के उपाय

- ठंडा पानी या ठंडे पेय लेने के बजाय गुनगुना पानी पिएं। अदरक डालकर सब्जियों का सूप पिएं।
- तेज भूख लगने पर ही भोजन करे, वयोंकि कम भूख या भूख के बगैर भोजन लेने से हाजमा सही नहीं होगा और कफ बनेगा।
- गेहूँ के आटे में चौथाई या आधी मात्रा में चने का आटा मिलाकर रोटी बनाएं। यदि चावल खाना है, तो उसमें काली मिर्च, तेज पत्ता आदि गर्म मसाला मिलाएं।
- भोजन खूब चबाकर करें और भूख से थोड़ा कम खाएं।
- कब्ज न रहने दें। इसके लिए प्रातः गर्म पानी पीकर व्यायाम करने के बाद शौच जाएं।
- दिन में तीन से चार बार सरसों का या बादाम का तेल 4-5 बूंद नाक में डालकर कफ निकालें।
- नासिका क्षेत्र में मैग्नेट का साउथ पोल 5 मिनट तक घुमाने से साइनोसाइटिस में लाभ मिलता है।
- पीठ की ओर से गर्म पानी की थैली से सुबह शाम सेंक करने से फेफड़ों की सर्दी बहुत जल्दी दूर हो जाती है।

सावधानियां

- रात को बायीं करवट सोएं।
- कानों में ठंडी हवा का झोंका न लगे, इसके लिये कान में रुई लगाए रखें।
- अगर आप जलनेति करते हैं, तो उसके बाद विरेचन प्राणायाम करें।
- खुले पैर घास में न टहले।
- ठंडे खाद्य व पेय पदार्थ ग्रहण न करें।





23.0° Highest Temperature
14.0° Minimum Temperature

Sunrise Tomorrow 18.32

Sunset Today 17.17

CITY

एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर सरकार और हॉकी इंडिया के बीच एमओयू मेजबानी के लिए झारखंड तैयार, 13 से 19 जनवरी तक रांची में खेला जाएगा मैच

PHOTON NEWS RANCHI :

राज्य सरकार एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर-2024 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है, जो 13 से 19 जनवरी तक रांची के मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को राज्य सरकार और हॉकी इंडिया के बीच एमओयू हुआ। मॉके पर झारखंड की ओर से हॉकी इंडिया को पांच करोड़ (रुपय) का चेक सौंपा गया। यह प्रतिष्ठित आयोजन वैश्विक स्तर पर होने वाले तीन ओलंपिक क्वालिफायर में से एक है, जिसके समकक्ष मस्कट, ओमान (पुरुष) और वलौसिया, स्पेन (महिला और पुरुष) हैं। एमओयू पर औपचारिक हस्ताक्षर में शामिल सभी हितधारकों के बीच एक सामूहिक प्रतिबद्धता और साझा दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया, जिसमें भारत में हॉकी के विकास को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने के समर्पण पर जोर दिया गया, साथ ही वैश्विक हॉकी



एमओयू के बाद दस्तावेज के साथ सरकार और हॉकी इंडिया के अधिकारी।

मंच पर देश की शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. दिलीप टिकी ने कहा कि रांची में एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर खेल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता की हमारी निरंतर खोज का एक प्रमाण है। हम इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा दिये गए समर्थन के बेहद आभारी हैं। हमारा लक्ष्य एक यादगार और सफल टूर्नामेंट आयोजित करना, हॉकी की भावना को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय सौहार्द को बढ़ावा देना है। एमओयू के बाद हॉकी इंडिया के महासचिव भोला

नाथ सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर हुआ है। यह भारत में हॉकी को बढ़ावा देने की दिशा में हमारी सामूहिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने एफआईएच के अध्यक्ष तैयब इकराम को टूर्नामेंट की मेजबानी देने के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम इस विशिष्ट टूर्नामेंट की मेजबानी में झारखंड सरकार के समर्थन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमारा लक्ष्य एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करना है जो हमारे देश में खेल के

रांची पहुंची इटली टीम, 13 को न्यूजीलैंड से टक्कर

PHOTON NEWS RANCHI :

इटली महिला हॉकी टीम गुरुवार को रांची पहुंची। रांची आने पर सभी का पावरफुल ढंग से भव्य स्वागत हुआ। नागपुरी गाने पर सभी खिलाड़ी थिरकते नजर आये। इस मौके पर हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड के प्रतिनिधि मौजूद थे। एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर-2024 में अपनी शुरुआत इटली टीम फेडेरिका कार्टी और सारा पुलीसी के नेतृत्व में 13 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। रांची पहुंचते ही कैप्टन सारा पुलीसी ने आगामी टूर्नामेंट के बारे में उत्साह व्यक्त किया और अपकॉमिंग मैचों के



नागपुरी गाने पर थिरकते नजर आये सभी खिलाड़ी।

लिफ टीम की तैयारियों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने कुछ महीनों की साझा तैयारियों की हैं। हमने काफी काम किया है। हम यहां आए हैं और हम इस हफ्ते अपनी अंतिम कदमों की प्रशिक्षण को समाप्त करेंगे और फिर हम साथ में टूर्नामेंट शुरू करेंगे। यह काफी रोमांचक है।

इटालियन स्किपर ने अपनी टीम की क्षमताओं में आत्मविश्वास जताया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि यह प्रतिस्पर्धा कठिन होगी लेकिन सब कुछ खुला है और कुछ भी असंभावित नहीं है। इटली महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच एंड्रेस मॉडो ने अपनी टीम का समर्थन किया।

राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश पर लगी रोक चतरा डीसी के पास रहेगा वित्तीय शक्तियों का अधिकार : हाईकोर्ट

PHOTON NEWS RANCHI :

झारखंड हाई कोर्ट इटखोरी मंदिर विकास समिति के द्वारा चतरा रिट याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई। कोर्ट ने झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश को रोक लगा दी। साथ ही निर्देश दिया कि यह याचिका जब तक हाई कोर्ट में लंबित रहेगी तब तक मंदिर का देख रेख तथा वित्तीय अधिकार उपायुक्त, चतरा के पास रहेगा। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि धार्मिक न्यास बोर्ड ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना किसी स्पष्टीकरण से मंदिर का प्रबंध नए समिति को दे दी है, जो कि उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। नई समिति का गठन करने के पूर्व पुरानी समिति को जो कि मंदिर का देखरेख करती है उसे स्पष्टीकरण देना होता है की वे मंदिर



का विकास सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। कोर्ट को बताया गया कि मंदिर का विकास पुरानी समिति 50-60 सालों से करते आ रही है। कहा गया कि जब माता की मूर्ति चोरी हुई थी तब भी इसी समिति ने मूर्ति कोलकाता से लाई थी। ना तो कोई स्पष्टीकरण दिया गया ना कानून का बोर्ड अनुपालन किया गया। इसके अलावा राजनीतिक दल के लोगों को नया समिति में रखा गया जबकि पूर्व में उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी आदि मंदिर का देखरेख करते थे।

सियासी हलचल के बीच बयानबाजी जारी सीएम को सता रहा गिरफ्तारी का डर : बाबूलाल मरांडी


RANCHI : राज्य सरकार पर संकट मंडरा रहा है। राजनीतिक उदात्पत्क के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के समन के बहाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक बार फिर निशाना साधा है। रांची में एक कार्यक्रम के दौरान गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में मरांडी ने कहा कि ईडी के सातवें समन के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पेश नहीं हो रहे हैं। इधर-उधर भागे फिर रहे हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का भय सता रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वीं बार समन भेजा है लेकिन मुख्यमंत्री उसके समक्ष हाजिर नहीं हो रहे हैं। वे इधर-उधर भाग रहे हैं। यदि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए और ईडी के सवाल को जवाब देना चाहिए। गांडेय विधानसभा सीट से सरफराज अहमद के इस्तीफे पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी गैर विश्वस्य के लिए ये सीट खाली कराई गयी है।

वार



सभी जानते हैं कि सरकार को किस तरह से लगातार अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और सत्ता पक्ष भी लगातार उनकी साजिशों को नाकाम कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और देखना होगा कि किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसी की मदद लेकर लगातार गैर भाजपा शासित सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। यहां हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से लगातार सरकार गिरने की अफवाहें उड़ती रही हैं और हर बार हम विपक्ष की इस अफवाह का जवाब देने में सफल रहे हैं।

पटलवार



RANCHI : विपक्ष द्वारा सरकार पर लगातार किये जा रहे हमलों का जवाब देते हुए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता कहते हैं कि विपक्ष का काम साजिश रचना है। सत्ताधारी दल इसे पिछल करके रहेगा। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल को किस तरह से लगातार अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और सत्ता पक्ष भी लगातार उनकी साजिशों को नाकाम कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और देखना होगा कि किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसी की मदद लेकर लगातार गैर भाजपा शासित सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। यहां हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से लगातार सरकार गिरने की अफवाहें उड़ती रही हैं और हर बार हम विपक्ष की इस अफवाह का जवाब देने में सफल रहे हैं।

चुनाव आते ही जातिगत समीकरण होने लगे सेट, कुशवाहा समाज ने भी दिखाई ताकत कुशवाहा समाज को नजरअंदाज कर रहे सत्ता में बैठे लोग : राजू महतो



बैठक में झारखंड कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष राजू महतो व अन्य।

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में चुनाव से पहले कई संगठन अपने जन आधार को साबित करने में जुटे हुए हैं। झारखंड में कुशवाहा समाज ने एकजुटता दिखाते हुए आगामी चुनाव में हुंकार भरने की बात

कही है। चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए झारखंड प्रदेश कुशवाहा समाज महासभा की तरफ बैठक की गई। जिसमें यह तय किया गया है कि आने वाले चुनाव में कुशवाहा समाज अपनी घनी आबादी वाले

क्षेत्र से जनप्रतिनिधि खड़ा करेगा और चुनाव में जीत प्राप्त करेगा। इसके बाद सदन में अपने हक की मांग करेगा। बैठक में झारखंड कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष राजू महतो ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में कुशवाहा समाज के लोगों की अपेक्षा की जा रही है। सत्ता में बैठे लोग कुशवाहा समाज के लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज की तारीख में झारखंड में रहने वाले कोइरी, काछी, शाक्य, सेनी, मौर्व, दांगी, माली, मुर्झ, बनाफर, मुरार जैसी जाति खुद को कुशवाहा से अलग मानती है।

पहली बार रिस्स में की गई अयोर्तिक डाइसेक्शन सर्जरी, सीएम ने दी बधाई डॉक्टरों ने मरीज के शरीर का रक्त प्रवाह 40 मिनट तक रोक की सर्जरी



रिस्स में कार्डियो थोरेटिक वैस्कुलर सर्जरी करने वाली टीम।

PHOTON NEWS RANCHI : रिस्स के कार्डियो थोरेटिक वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग के डॉक्टरों ने एक हृदय की जटिल सर्जरी करते हुए मरीज के पूरे शरीर के रक्त प्रवाह को 40 मिनट तक रोका और कुतमि पाइप

के माध्यम से धमनी बनाकर मरीज की जान बचायी। डॉक्टरों ने इस सर्जरी को कर एक और उपलब्धि अपने नाम की है। वर्ष के शुरुआत में ही विभागाध्यक्ष डॉ. विनीत महाजन की टीम ने अयोर्तिक डाइसेक्शन जैसी जटिल

सर्जरी कर एक मरीज को नई जिंदगी दी है। यह सर्जरी रिस्स में पहली बार की गई। धनबाद निवासी यह मरीज दिसंबर महीने में रिस्स पहुंचा था। इस मरीज के हृदय की महाधमनी कई भाग से फट गई थी। इस स्थिति को अयोर्तिक डाइसेक्शन कहा जाता है, इसमें मरीज की जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। रिस्स सीटीवीएस डॉक्टरों के द्वारा किए गए सर्जरी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर रिस्स के डॉक्टरों को बधाई देते हुए इस सर्जरी को शानदार बताया है।

आठवें दिन वार्ता के बाद खुला आर्यू के ईडीपीसी का ताला



PHOTON NEWS RANCHI : रांची विश्वविद्यालय के ईडीपीसी का ताला आठवें दिन खुल गया। गुरुवार को रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कुलपति अजीत कुमार सिंह के साथ छात्र संगठनों की वार्ता हुई, वार्ता में डॉक्टर अजीत सिंह ने कहा कि रिजल्ट आर यू एट्टिस एर्रामा के रिजल्ट का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। साथ ही आपत्तित जताने के लिए 4 जनवरी से 11 जनवरी तक का समय दिया

जाएगा। इन बातों में सहमति बनने के बाद छात्र संगठन के लोगों ने कुलपति को चाबी दी और ताला खोलने कुलपति ईडीपीसी पहुंचे। बैठक में रांची विश्वविद्यालय के सभी छात्र संगठन के सदस्य और नेता शामिल रहे। इससे पहले बैठक के शुरुआती दौर में काफी हंगामा हुआ। वहीं विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोलर आशीष कुमार झा के साथ छात्र संगठनों की बकझक भी हुई।

रांची सहित आसपास के इलाकों में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या को देख दी जाएगी रूट पास ई रिक्शा से लगने वाली जाम से मिलेगी मुक्ति

PHOTON NEWS RANCHI :

राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में ई-रिक्शा की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस वजह से जाम और अतिक्रमण के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रांची नगर निगम के नगर आयुक्त अमित कुमार और जिला प्रशासन के जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश कोशिश कर रहे हैं। राजधानी रांची के अल्ट्रा एक्का चौक, लालपुर चौक, प्लाजा चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर आए दिन ई रिक्शा की अत्यधिक भीड़ देखने को मिलती है। जिस वजह से सड़क किनारे आए दिन जाम की समस्या से



लोगों को जूझना पड़ता है। ई-रिक्शा ज्यादातर वैसे क्षेत्रों में देखे जाते हैं, जहां पर यात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे में उन क्षेत्रों के यात्रियों को काफी दिक्कत होती है जहां एक भी ई रिक्शा मौजूद नहीं है। नगर आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि अमूमन यह देखा जाता है कई इलाकों में पर्याप्त यात्री हैं, लेकिन

वहां पर एक भी ई रिक्शा नहीं है और जहां पर यात्री कम हैं वहां भी बहुत संख्या में ई-रिक्शा लगे हुए हैं। ई-रिक्शा के इस अनियमित व्यवस्था को नियमित करने के लिए रूट पास का बनना जरूरी है। रूट पास के माध्यम से सभी ई रिक्शा का रूट निर्धारित कर दिया जाएगा। रूट पास में जो भी क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे।

रांची में करीब 5000 ई रिक्शा चल रहे

राजधानी रांची में करीब पांच हजार ई रिक्शा चल रहे हैं जो अल्ट्रा एक्का चौक, सुजाता चौक, लालपुर चौक, राठ रोड चौक इलाके में सबसे ज्यादा चलते हैं पांच हजार ई रिक्शा में मात्र पंद्रह सौ ई रिक्शा का ही रूट पास बना हुआ है। बाकी के सभी ई रिक्शा बिना रूट पास के ही शहर में चल रहे हैं। ई-रिक्शा की वजह से लगातार बढ़ रहे जाम की समस्या को लेकर नगर आयुक्त ने सख्त निर्देश दिया है कि आगामी 10 जनवरी तक सभी ई रिक्शा को विहित किया जाए और जिन्हें भी रूट पास नहीं बने हैं। उनके रूट पास जल्द से जल्द बनाए जाएं। वहीं, निगम के इस आदेश के बाद ई रिक्शा चालकों ने कहा कि रूट यदि निर्धारित कर दिए जाएंगे तो सभी रिक्शा चालक अपने-अपने रूट पर चलेंगे। वहीं कहीं रिक्शा चालकों ने कहा कि रूट पास बनाने के लिए निगम में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा, इससे पहले भी कई बार रूट चार्ट बनाने की बात कही गई है।

BRIEF NEWS

ओडिशा में कोरोना के अब तक 27 मरीज मिले

BHUBANESWAR : ओडिशा में अत्यधिक संक्रमक कोविड उप-संस्करण जेएन.1 के मामलों का पता चला है। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। राज्य में कोविड पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 27 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान ओडिशा में दो और सक्रिय कोरोना केस का पता चला। इनमें से एक मरीज कोरोना के खट.1 सब-वैरिएंट से संक्रमित है। हालांकि, बुधवार को मरीजों की संख्या 27 से घटकर 25 हो गई, क्योंकि इस अवधि के दौरान पांच मरीज ठीक हो गए। सभी मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है और उनका होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। ओडिशा के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक डॉ. विजय महापात्र ने कहा कि बुधवार को ओडिशा में पहला जेएन.1 मामला सामने आया और मरीज की हालत स्थिर है। डॉ. महापात्र ने कहा, दुनिया भर में यह पाया गया है कि जेएन.1 उप-प्रकार के लक्षण गंभीर नहीं हैं और कोरोना दिशानिर्देशों का पालन करते हुए घरेलू अलगाव में ठीक किया जा सकता है।

बणई अस्पताल में जल्द मिलेगी डायलिसिस की सुविधा



SUNDARGARH : सुंदरगढ़ जिले के बणई उपखंड अस्पताल में जल्द ही डायलिसिस सुविधा उपलब्ध होने वाली है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अगले कुछ दिनों में इसे चालू करने की योजना है। और जो मरीज किडनी की समस्या से गुजर रहे हैं उन्हें इससे खास तौर पर फायदा होगा। पिछले मार्च 2023 में तत्कालीन 5टी सचिव वी. कार्तिकेयन पाटिल के सुंदरगढ़ दौर के दौरान इस को लेकर स्थानीय निवासियों की ओर से मांग की गई थी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस मांग पर गंभीरता से विचार किया और बणई में डायलिसिस युनिट स्थापित करने का आदेश दिया। अब, बणई उप-विभागीय स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि यह उनकी पहुंच में ही मिलेगा। इस डायलिसिस सेक्टर में किडनी की समस्या से पीड़ित लोगों को आधुनिक तकनीक और पेजवर कोशल वाले डॉक्टरों द्वारा आधुनिक उपचार दिया जाएगा। वहीं इस केंद्र का उद्घाटन जल्द ही होने वाला है, जिला मुख्य निवासियों एवं जन स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धरणी रंजन सतपथी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, हम सुंदरगढ़ में सामुदायिक स्तर पर बेहतर, नवीन और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और बणई में इस डायलिसिस केंद्र की स्थापना को उस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। केंद्र में 4 डायलिसिस मशीनें हैं और यह दिन के 24 घंटे, साप्ताहिक 7 दिन खुला रहेगा। ताकि जिन लोगों को डायलिसिस सेवाओं की आवश्यकता है उन्हें 24 घंटे से अधिक इंतजार न करना पड़े। महीने में 400 से अधिक लोगों को डायलिसिस की सुविधा मिल सकेगी। जिन मरीजों को जिला उप-जिला स्तर के अस्पतालों से इस इलाज के लिए रेफर किया जाएगा, उन्हें यह इलाज मुफ्त मिलेगा। इस सुविधा के चालू हो जाने से इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो जाने से स्थानीय लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन पहुंचे राउरकेला



ROURKELA : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, उपाध्यक्ष लेखाश्री सामंत सिंघर, मानस मोहंती संगठनाध्यक्ष कार्य को लेकर गुरुवार को राउरकेला पहुंचे। गुरुवार सुबह राउरकेला रेलवे स्टेशन पर सुंदरगढ़ के सांसद जुएल ओराम और अनेक संस्थाओं में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

बस, हाईवा और ट्रक के बीच टक्कर, 5 गंभीर



ROURKELA : पिकनिक बस, हाईवा और ट्रक के बीच टक्कर के कारण पांच लोगों को गंभीर चोटें आईं। जानकारी के अनुसार, टेंकनाल जिले एक पिकनिक बस का चालक पहले एक हाइवा ट्रक से टकरा गया, जिसके परिणामस्वरूप पांच लोग घायल हो गए। पर्टिक बस संबलपुर से 40 से अधिक पिकनिकों यात्री के साथ चंडीखोल लौट रही थी। हादसे में हाइवा ट्रक के चालक को भी चोट आई है। दुर्घटना के तुरंत बाद, एक अन्य ट्रक के चालक ने नियंत्रण खो से और दूधरे वाहन से आगे निकलने की कोशिश करते हुए हाइवा से टकराने दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सभी घायलों को तालचर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

बिसरा इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या मृतक का भाई समेत दो गिरफ्तार, पिस्टल जब्त



ROURKELA : 1 जनवरी की रात बिसरा थाना अंतर्गत तैरकेला घाट पर क्षीरधर सिंह नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। बिसरा पुलिस ने गुरुवार को क्षीरधर के बड़े भाई उमेश सिंह और उसके एक अन्य सहयोगी गोराम गोप को गिरफ्तार कर अदालत में हाजिर किए। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद कर ली गई है। मौलूम हो कि यह हत्या मामूली विवाद को लेकर हुई है। चूंकि नया साल था, उस दिन तैरकेला घाट के पास एक घर में 7 युवक पार्टी कर रहे थे। युवक नशे में थे और बेपरवाह फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान क्षीरधर को उसके बड़े भाई उमेश सिंह की पिस्तौल से गोली लग गयी बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस की वैज्ञानिक टीम ने मौके से खोका बरामद किए हैं। पुलिस ने घटना की जांच की और क्षीरधर के बड़े भाई उमेश सिंह और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

संबलपुर में बस की चपेट में आने से युवक की मौत



ROURKELA : संबलपुर में गुरुवार बस की चपेट में आने से नाबालिग लड़के की मौत हो गई। लक्ष्मी टॉकीज चौक समीप दुर्घटना स्थल पर तनाव फैल गया। गुस्साई भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

राम चाहते तो खुद अपना महल बनवा लेते: तेजस्वी

तेजस्वी बोले-उन्हें मोदी जी की जरूरत नहीं, हम नौकरी दे रहे हैं और ये ईडी-सीबीआई भेज रहे

मधुबनी। अयोध्या में श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि राम मंदिर पर बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं वो बेकार की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम को मंदिर या महल की जरूरत नहीं है। तेजस्वी बुधवार को मधुबनी के झंझारपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री राम मंदिर की बात कर रहे हैं। भगवान राम को मोदी जी की जरूरत है क्या। डिप्टी सीएम ने कहा कि भगवान राम चाहते तो खुद नहीं बनवा लेते अपना महल हर जगह, लेकिन मोदी जी इस तरह से दिखा रहे हैं कि राम भगवान को



उन्होंने घर दे दिया। महल बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। ये सब बेकार की बातें हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई मोदी जी से नहीं है और न ही अमित शाह से। हम लोग मुद्दों की लड़ाई लतेजस्वी बोले- गलत काम करेंगे तो राम की कृपा नहीं बरसेगी तेजस्वी ने आगे कहा

कि भगवान के प्रति दिल में, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। नीकत साफ होनी चाहिए। गलत काम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे और फिर राम-राम जपेंगे, तो भगवान राम की कृपा आप पर नहीं बरसेगी। यह समझने की जरूरत है। तेजस्वी ने कहा कि नेक काम कीजिए तो



भगवान राम का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। इसलिए दंगा फसाद सब से बचने की जरूरत है। केन्द्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पैर कट जाएगा तो मंदिर जाकर पंडित को दिखाइएगा कि अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाइएगा तेजस्वी यादव ने कहा

कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हम नौकरी दे रहे हैं और ये ED और CBI को भेज रहे हैं। हम बचपन से इन सब चीजों को देख रहे हैं। क्या होने वाला है, इससे कुछ तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। सांच को आंच किस

बात का हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई मोदी जी से नहीं है। न ही अमित शाह से हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम तो सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि मोदी जी आपने जो वादा किया था कि लोगों के खते में 15-15 लाख रुपए दिया जाएगा, वह कहा गया। उन्होंने कहा कि उधर चीन कब्जा करते जा रहा है और ये कुछ बोलते नहीं हैं। उन्होंने रेल, सेल, भेल सबको बेच दिया। आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद क्यों मोहन चौकसी, नीलम मोदी ललित मोदी देश छोड़कर भाग गया। आपके रहते हुए आप तो देश के चौकीदार थे, कैसे देश के चौकीदार को चकमा देकर बैंक लूटकर भाग गया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर लोगों को चोट लगती है।

सांक्षिप्त डायरी

ज्वेलरी शॉप से 20 लाख के जेवरात की चोरी

खगड़िया। खगड़िया में एक दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप के शटर और लॉकर को तोड़कर करीब 20 लाख रुपए के जेवरात की चोरी कर ली। घटना जिले के चौथम थाना से महज तीन सौ मीटर दूर चौथम बाजार की है। ठंड और घने कोहरे का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। सभी फरार हो गए और पुलिस को भनक तक नहीं मिल पाई। सुबह घटना की खबर मिली तो पुलिस टीम मामले की छानबीन में जुट गई। चौथम के थानाध्यक्ष सत्यव्रत सिंह ने कहा कि घटनास्थल की जांच की गई है। मामले में अपराधियों का पता लगाया जा रहा है लौथम थाना क्षेत्र के करूआ मोर निवासी भरत प्रसाद साह के पुत्र उदय कुमार की चौथम बाजार में बाबू भरत ज्वेलर्स नामक दुकान है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि बुधवार की शाम करीब 6 बजे दुकान बंद कर घर चला गया। देर रात खबर मिली कि दुकान में चोरी कर ली गई है। दुकान पहुंचे तो शटर टूटा हुआ था। अंदर लॉकर में रखे सभी जेवरात और अन्य सामग्री गायब मिले। बदमाशों ने पीछे से दुकान की दीवार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित दुकानदार के अनुसार करीब 20 लाख रुपए मूल्य के जेवरात की चोरी हुई है।

खाने में कीड़ा निकलने की शिकायत पर जांच टीम गठित

सुपौल। सुपौल के वीरपुर स्थित एनएम ट्रेनिंग स्कूल एंड छात्रावास के खाने में कीड़ा निकला। इस मामले में सिविल सर्जन ने तीन सदस्यीय टीम को जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। छात्राओं ने खाने में मरे हुए कीड़े वाला भोजन परोसे जाने का आरोप लगाया था। छात्र सानू कुमारी, तनु सिंह सोनली कुमारी ज्योति कुमारी, पूजा कुमारी काजल कुमारी, सोनी कुमारी आरती कुमारी, समेत अन्य ने बताया कि छात्रावास में प्रथम और द्वितीय वर्ष मिलाकर कुल 92 छात्राएँ हैं। आरोप है कि खाने में कीड़े से कई छात्राएँ बीमार पड़ जाती हैं। बार-बार मेष इंजॉर्ज जेपी मंडल से शिकायत भी की गई लेकिन यह इस पर ध्यान नहीं देकर उल्टा फटकारते हैं। जबकि खाने के बदले पैसा देना होता है वही 28 दिसम्बर को छात्राओं ने विरोध-प्रदर्शन भी किया था। मेष इंजॉर्ज जेपी मंडल ने आरोपी को वेबुनिनाद बताया था और कहा था कि हर महीने कमीशन के तौर पर पांच हजार रुपए लिया जाता है इसके राशि बढ़ाकर अब दस हजार महीना कर दिया गया है। सुपौल सिविल सर्जन डॉक्टर ललन कुमार ठाकुर ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही तीन सदस्यीय टीम के गठन कर दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

22 जनवरी को मिथिला में भव्य दीपोत्सव

दरभंगा। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ऐसे में देश के लोगों में उत्साह है। लोग देश के अलग अलग हिस्से से जोश और जुनून के साथ अयोध्या पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान राम का ससुराल मिथिला में भी खास तैयारी की गई है। 22 जनवरी को 51 हजार दीप जलाए जाएंगे। दरभंगा जिला के विरौल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत पोखराम गांव के कमला गहवर शक्तिधाम में उद्घाटन यानी 22 जनवरी के दिन शाम में एक भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। जिसमें एक साथ 51 हजार दीप प्रज्वलित कर लोग अभी खुशी मनावेंगे। साथ ही इस समारोह में मिथिला क्षेत्र में नामचीन गायक समेत कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। जिसमें इस इलाके से सभी संत भाग लेंगे। आयोजक समिति के ब्रजानंदन चौधरी ने कहा कि यह समारोह मिथिला में उस दिन एक मात्र इतने बड़े स्तर का कार्यक्रम है। जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए उनके भी अपने आराध्य भगवान राम का पूजन का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मिथिला चित्रकारी के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित दुलारी देवी, बीआ देवी और साथ ही समेत कई गणमान्य लोग मौजूद होंगे।

मकान मालिक ने किराएदार को पीटा

बेगूसराय। बेगूसराय में मकान मालिक ने किराएदार और उसकी पत्नी को लोहे की रड से पीट-पीटकर घायल कर दिया। इस घटना में पति-पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज चल रहा है। घटना नीमा चांदपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर बस्ती की है। घायल की पहचान चांदपुर निवासी शंजुज कुमार एवं उनकी पत्नी रेणु देवी के रूप में की गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि वह तकरीबन 5 वर्षों से चांदपुर निवासी नीतीश कुमार के मकान में टेलर का दुकान चलाते थे। एक महीने पूर्व नीतीश कुमार ने उन्हें मकान खाली करने के लिए कहा था। इसकी अवधि समाप्त हो गई। खरमास की वजह से उन्होंने दूसरी जगह दुकान को शिफ्ट नहीं किया। गुरुवार की सुबह मकान मालिक नीतीश कुमार पहुंचे। पहले दुकान में ताला लगा दिया। किराएदार शंजुज कुमार ने ताला खोलने की गुंजारिश की तो उन्हें एवं उनकी पत्नी को पीट-पीट कर घायल कर दिया।

स्कूल बस-ट्रक की टक्कर, बच्चे घायल

पूर्णिया। पूर्णिया में बच्चों से भरी स्कूल बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़त हुई है। इसमें स्कूल बस और ट्रक दोनों के परखच्चे उड़ गए। हालांकि ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। भिड़त में 4 बच्चे मामूली रूप से जखमी हो गए। जिन्हें आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया गया है। स्कूल बस सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाग की है। रॉन साइड से आ रही बस पर



कुल 7 बच्चे सवार थे हादसे की वजह कोहरे को बताया जा रहा है। घटना मुफरिसल थाना के रानीपतरा के पूर्णिया कटिहार एनएच 131 ए

की है स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्णिया कटिहार एनएच 131 ए पर सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाग की स्कूल बस गलत दिशा से आ रही थी। तभी सामने से आ रही एक ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। इसमें बस के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। इस हादसे में 4 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसमें दो बच्चों के सिर में हल्की चोट लगी है जबकि दो बच्चों के कान में सीसा चुभ गया।

कोयला कारोबारी को 11 गोलियां मारीं, मौत

रांची। रांची में अपराधियों ने कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव पर गोलियां बरसाईं। उन्हें आनन-फानन में मेडिका अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कारोबारी को 11 गोलियां लगी थीं। अभिषेक बिहार के छपरा के मूल निवासी थे। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे कारोबारी पर हमला हुआ। वह अपनी काले रंग की फॉर्च्युनर कार में थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो से आए अपराधियों ने गोलियां चलाईं। अभिषेक का अपार्टमेंट रातू थाना क्षेत्र के आस्थापुरम में था। वारदात के वक्त वो घर से कहीं जा रहे रहे थे। जैसे ही अभिषेक की गाड़ी अपार्टमेंट की गली में मुड़ी पहले से



इंतजार कर रहे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अभिषेक का घर पास ही था, इसलिए आनन-फानन परिवार वाले मौके पर पहुंच गए। अभिषेक श्रीवास्तव को पीएलएफआई संगठन की ओर से से पहले भी धमकी भी मिली थी। आशंका

जताई जा रही है कि पीएलएफआई संगठन ने घटना को अंजाम दिया होगा। अपराधियों ने गाड़ी के सामने से गोलियां चलाईं। जिससे गाड़ी के सामने का शीशा छलनी हो गया। गाड़ी के शीशे पर चार राउंड गोलियां चलने के निशान हैं घटना के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक

गोली मारने वाले अपराधी स्कॉर्पियो में आए हुए थे। उनकी संख्या पांच बताई जा रही है। सूचना है कि अपराधियों ने अभिषेक श्रीवास्तव को 11 गोली मारी हैं। अभिषेक को आनन-फानन में परिवार वाले मेडिका लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बताया कि पहले ही उनकी मौत हो गई है। अभिषेक छपरा के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम सचिंद्र श्रीवास्तव है। छोटा भाई विवेक हैं। घटना के समय विवेक छपरा में थे। हत्या की खबर मिलने पर वह रांची आ रहे हैं। कोयला कारोबारी पर हुई गोलीबारी के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजधानी रांची के लचर कानून की फिर से पोल खुल गई।

मनीष कश्यप के घर 1 घंटे रुकेंगे मनोज तिवारी

बेतिया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी कुछ ही देर में चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के घर बेतिया के महानाव डुमरी पहुंचेंगे। यहां मनीष कश्यप की मां से मुलाकात करेंगे। गांव में भी लोगों से मुलाकात करेंगे। मनोज तिवारी के आगमन को लेकर मनीष कश्यप के घर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। जानकारी के अनुसार मनोज तिवारी यहां करीब 1 घंटे तक रुकेंगे। सबसे पहले मनीष की मां से मुलाकात करेंगे। उसके बाद, मनीष के जिस घर की कुर्की हुई थी, उसका भ्रमण करेंगे। उनके परिजन, सहयोगी और ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे उनके गांव के महानाव डुमरी मठ पर 15 मिनट



तक सभा को संबोधित करेंगे। इधर मनीष कश्यप के घर पर मनोज तिवारी के आगमन को लेकर हजारों के संख्या में सुबह से ही

इसमें उन्होंने मनीष के घर आने की बात कही थी। कहा था कि बिहार की एक ऐसी पार्टी है, जो गरीबों की आवाज उठाने वाले लोगों को दबती है। मैं मनीष के घर जाऊंगा और उनके जिस घर की कुर्की हुई थी, उसे देखूंगा उनकी मां से मुलाकात करूंगा। पटना में बोले इससे पहले आज मनोज तिवारी पटना पहुंचे। पटना में उन्होंने मीडिया से कहा कि मनीष कश्यप के घर जा रहा हूँ। उनके साथ गलत हुआ है। पत्रकारों की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन हो रहा है।

लोगों की भीड़ जुटी हुई है। दरअसल भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने 4 दिन पहले मनीष के साथ एक वीडियो जारी किया था।

गिफ्ट शॉप में लगी आग

नवादा। नवादा में गिफ्ट शॉप में अग लग गई। अगलगी में 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना कौवाकोल बाजार का है। जहां छोटेला साव के गिफ्ट कॉर्नर एंड रेडिमेड शॉप में अग लग गई। आग कैसे लगी वे दुकानदार को भी नहीं पता चला। हालांकि शॉर्ट-सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। स्थानीय लोगों ने सूचना अग्निशमन विभाग को दी। तीन घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान सभी कीमती सामान जल गए। दुकान में 10 लाख मूल्य के सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गए। घटना के पीछे का मुख्य कारण शॉर्ट-सर्किट बताया



जा रहा है। आग लगने के बाद स्थानीय मोहल्ले वालों ने अग्निशमन को इसकी सूचना दी। अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मगर इस दौरान दुकानदार का काफी नुकसान हो चुका था। फिलहाल अग्निशमन ने आग को पूरी तरह से बुझा दिया है।

बीजेपी में मोदी युग की वापसी की आहट

पटना। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का शुक्रवार को जन्मदिन है। जन्मदिन से पहले पटना में अलग-अलग चौक चौराहों पर पोस्टर लगा कर सुशील मोदी को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। लेकिन एक पोस्टर ऐसा भी है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह पोस्टर बिहार बीजेपी ऑफिस के बाहर लगाई गई है। इस पोस्टर में सुशील मोदी को बिहार बीजेपी का संकटमोचन बताया गया है। पोस्टर में क्या है पोस्टर पर हनुमान जी और सुशील मोदी की बड़ी सी तस्वीर है। इस पर लिखा गया है कि बिहार भाजपा के संकटमोचक। पोस्टर सुशील मोदी फैंस एसोसिएशन बिहार की ओर से लगाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी के नेताओं ने



पटना के अलग-अलग इलाकों में सुशील मोदी के साथ हनुमान जी तस्वीर लगाकर पोस्टर लगाया है। पोस्टर से क्या मिल रहा है संकेत सुशील कुमार मोदी को 2020 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। साथ ही बिहार बीजेपी की ओर से भी इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। सुशील मोदी को राज्यसभा सदस्य बनाकर दिल्ली भेज दिया गया।

कांग्रेस की आज की बैठक में बनेगी रणनीति

पटना। कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक लोकसभा चुनाव में शीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले दिल्ली में गुरुवार को होनी है। दिन के 11 बजे यह बैठक कांग्रेस मुख्यालय 24 अक्टूबर रोड में यह बैठक हो रही है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, विधायक दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान और बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश इस बैठक में भाग ले रहे हैं। हालांकि यह मीटिंग कांग्रेस की होने वाली भारत जोड़ो यात्रा की अगली रूपरेखा को निश्चित करने और लोकसभा चुनाव में भाजपा से कैसे लड़ा-भिड़ा जाए इसकी रणनीति बनाने के लिए हो रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिहार भी आएंगे। जानकारी है कि वे चार-पांच दिनों की बिहार यात्रा



कर सकते हैं। इस बैठक में कांग्रेस के देश भर के 112 नेता भाग ले रहे हैं। मेजबान अलावरस कमिटी के नेताओं मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान

खुशींद और मोहन प्रकाश के साथ बिहार के खास नेताओं की मीटिंग पहले ही हो चुकी है। सीटों को लेकर अपनी रिपोर्ट भी कमिटी ने कांग्रेस आलाकमान को सौंप दी है।



इस पर अंतिम फैसला राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है। नीतीश कुमार की पार्टी ने अरुणाचल में एक उम्मीदवार के नाम

की घोषणा कर यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार को शीट शेयरिंग फाइनल करने की जल्दी है। इंडिया का संयोजक बनाए जाने

पर कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बुधवार को कहा कि इसमें कांग्रेस को आपत्ति नहीं है। मेनोफेस्टो कमिटी बैठक भी आज कांग्रेस मेनोफेस्टो कमिटी की बैठक भी दिल्ली में होनी है। कांग्रेस तय करेगी की बीजेपी राम मंदिर के बहाने हिंदू वोट बैंक को जिस तरह से एकजुट करने में जुटी है उसका जवाब कांग्रेस किस तरह से दे। मेनोफेस्टो कमिटी की बैठक 4 बजे शाम में होनी है। कांग्रेस बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर 10 सीटों की मांग करती रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन किशनगंज की एक सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। लातू प्रसाद की पार्टी महागठबंधन में थी उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी।

सड़क सुरक्षा जनजागरण रैली हुई आयोजित

संवाददाता अमरोहा। अमरोहा शहर के जे०एस०हिन्दू इन्टर कालेज अमरोहा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संचालित विशेष शिविर 1 से 7 जनवरी 2024 के अन्तर्गत चौथे दिवस उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहल्ला चौक अमरोहा के प्रांगण से प्रातः 10.30 बजे डॉ शिवशंकर यादव कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के नेतृत्व में एक सड़क सुरक्षा जनजागरण रैली निकाली गयी जिसका शुभारम्भ यातायात उपनिरीक्षक अनिल मथुरिया ने माँ

संस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करने के उपरान्त हरि झण्डी दिखाकर रैली को रवाना किया, जोकि मोहल्ला चौक बाजार जट, बड़ा बाजार, कोतवाली मोहल्ला मछल्लटा होते हुए हिन्दू इन्टर कालेज पर आकर समाप्त हुई। जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक एवं सेविकाएँ सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सुरक्षित चलो सुरक्षित रहो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी के जय घोष करते हुए लोगों को जागरूक किया। तदोपरान्त सभी स्वयं सेवक अमरोहा नगर के अतरासी बाई पास पर निर्मित निजि



क्षेत्र के मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में पहुंचे जहां स्वयं सेवक एवं सेविकाओं को सेफ ड्राइव रोड सेफ्टी फाउन्डेशन उ०प्र० के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर विशेष

परिषद प्रदान किया गया। जिसके अन्तर्गत सड़क चिह्न भाषा, चालन विनियमन 2017, एवं गुड सेमेरिएटन लॉ तथा यातायात प्रबन्धन में सिग्नल प्रणाली की

आवश्यकता जैसे विषय पर विडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई गयी। उक्त परिषदा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहायक सम्भागीय परिवहन

अधिकारी प्रवर्तन महेश कुमार शर्मा, सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक वैभव सोती, जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य अनिल कुमार जग्गा, यातायात उपनिरीक्षक अनिल मथुरिया, सोमेश कुमार शास्त्री, भीम सिंह, यातायात पुलिस के मुख्य आरक्षी चन्द्रसेन एवं आरक्षी सोनू कुमार आदि उपस्थित रहे कार्यक्रम के अन्त में जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य अनिल कुमार जग्गा, ने उपस्थित जन को सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराई गयी। तथा राष्ट्रगान के साथ परिषदा कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

संक्षिप्त डायरी

नरकटिया बाजार में सौ परिवारों को दिया गया कम्बल



संवाददाता कसया, कुशीनगर। हाटा विकास खण्ड के गांव नरकटिया में गुरुवार को ठंड से निजात दिलाने के लिए गरीब असहाय लोगों को ग्राम प्रधान उमा देवी के पुत्र समाजिक कार्यकर्ता विवेकानंद दुबे द्वारा एक समारोह आयोजित कर सैकड़ों ग्रामीणों को ठंड से निजात दिलाने के लिए कम्बल वितरित किया गया। विवेकानंद दुबे ने कहा कि गरीब, असहाय लोगों को ठंड से बचाना हर मानव का धर्म है गरीबों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इनकी सेवा करने में लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव के असहाय और गरीब परिवार के महिलाओं और पुरुषों को कम्बल बांटकर गरीबों के दुःख का साझा किया गया। यह काम करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान डुमरी चूरामन छपरा डिंपल पाण्डेय व संचालन सर्वेश कुमार तिवारी ने किया। इस अवसर पर अनीश शर्मा, संतंद, विशाल, कमलेश कुमार नरेश कुमार गुप्ता मनोज तिवारी श्रीकांत पटेल दयाशंकर तिवारी ओमप्रकाश वर्मा आदि ग्रामीण उपस्थित रहे।

विधायक पीएन पाठक की पहल लायी रंग: बुद्ध स्थली कुशीनगर व मंदिरों के विकास के लिए 2.85 करोड़ स्वीकृत

संवाददाता कसया, कुशीनगर। कुशीनगर विधायक पीएन पाठक की पहल रंग लाई और उनके मांग पत्र पर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने बौद्ध स्थल कुशीनगर के विकास के लिए दो करोड़ पचासी लाख रूपए का धन स्वीकृत किया है। स्वीकृत धन से बुद्ध से जुड़े सभी भवनों और मंदिर का जीर्णोद्धार अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जायेगा। बता दें कि कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने बीते 10 अक्टूबर को बुद्ध स्थल कुशीनगर के विकास और बुद्ध कालीन मंदिरों के कायाकल्प करने के लिए सांस्कृतिक मंत्री को पत्र लिखकर कर अनुरोध किया था। जिसको संज्ञान में लेकर शासन ने बुद्ध स्थल कुशीनगर के विकास और मंदिरों के कायाकल्प के लिए दो करोड़ पचासी लाख रूपए की स्वीकृति दी है। जिससे अब बुद्ध स्थल पर स्थापित मंदिरों का कायाकल्प होगा। विधायक पीएन पाठक ने कहा कि पूरी दुनिया से बुद्ध के अनुयायी कुशीनगर बुद्ध स्थल का भ्रमण करने आते हैं। बहुत से मंदिर का जीर्णोद्धार अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की जरूरत थी जिसको लेकर हम शासन में एक पत्र लिखकर भेजे थे जिसको संज्ञान में लेकर शासन ने धन स्वीकृत किया है। हमारा प्रयास है कि कोई धर्म स्थल विकास से अछूता न रहे।



करण फ्री इंडिया संगठन की जिला कार्यकारिणी का विस्तार



संवाददाता बिलासपुर। गुरुवार को करण फ्री इंडिया संगठन की एक बैठक का आयोजन बागपुर गांव में किया गया जिसमें बरेोजगारी के मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया तथा जिला कार्यकारिणी युवा का विस्तार करते हुए अशोक भाटी व सुरेश नागर को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई। करण फ्री इंडिया संगठन के प्रदेश महासचिव मास्टर दिनेश नागर में बताया कि संगठन लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा व बरेोजगारी की समस्या को लेकर कार्य कर रहा है। संगठन का मुख्य मुद्दा क्षेत्र में बरेोजगार युवाओं की समस्या का निवारण करना है जिसको लेकर संगठन गांव गांव जाकर बैठक करके लोगों को जागरूक कर रहा है। मास्टर दिनेश नागर ने बताया कि गुरुवार को संगठन की बैठक का आयोजन गांव बागपुर में किया गया जिसमें लोगों से बरेोजगारी के मुद्दे पर जुड़ने का आह्वान किया। दिनेश नागर ने बताया कि बैठक में संगठन का विस्तार करते हुए खानपुर निवासी अशोक भाटी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवा तथा अट्टा गुजरान निवासी सुरेश नागर को जिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया। इस दौरान दिनेश भाटी, भूषण भाटी, गौरव भाटी, कुलबीर भाटी, राकेश नागर, मोहित नागर, पिटू मास्टर आदि लोग मौजूद रहे।

आमजन को न्याय दिलाना मेरी प्राथमिकता: ज्वाइंट मजिस्ट्रेट



संवाददाता कुशीनगर। विशेष सचिव नियुक्ति अनुभाग के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा कुशीनगर के निर्देश पर आईएएस अंकिता जैन को प्रतीक्षारत थीं ने आज गुरुवार को कसया तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का पद भार ग्रहण कर लिया। इसी क्रम में कसया तहसील के उपजिलाधिकारी योगेश्वर सिंह को अतिरिक्त कलेक्टर जिला मुख्यालय कुशीनगर बनाये गए हैं। कसया तहसील कार्यालय में पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने कहा कि तहसील क्षेत्र का विकास और आमजन को न्याय दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी। इसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल गण के साथ बैठक कर जानकारीयां ली और आम जन की समस्याओं के निराकरण पर बल दिया व तहसील के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया।

डॉक्टर की अस्पताल में हत्या, बेड पर मिली लाश



जौनपुर। बुधवार देर रात अस्पताल में घुसकर डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीन नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब डॉक्टर तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में सो रहे थे। बदमाशों ने 5 गोली मारकर उनकी हत्या की। फिर मौके से फरार हो गए। बेड पर ही डॉक्टर की खून से लथपथ लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक, मृतक डॉक्टर का नाम तिलकधारी पटेल है। उम्र 34 साल थी। उनके पास इअटर की डिग्री थी। जलालपुर चौराहे के पास श्रीसाई बाल चिकित्सालय के नाम से अस्पताल चलता है। बुधवार को दिन भर डॉक्टर अपने अस्पताल में रहे। मरीज देखे। इसके बाद देर शाम को खाना खाने के बाद वह अस्पताल की तीसरी मंजिल पर सोने चले गए। बुधवार रात करीब 2 बजे एक बाइक पर 3 बदमाश आए। उन्होंने अपने चेहरे कवर कर रखे थे। सीढ़ी से होते हुए वह अस्पताल की तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां कमरे में सो रहे डॉ. तिलकधारी को ताबड़तोड़ गोलियां मारीं। गोलीयों की आवाज सुनकर इलाके के लोग जग गए। अस्पताल की दूसरी मंजिल में भी कुछ मरीज और उनके परिजन थे। डॉक्टर के कमरे में पहुंचे तो वह खून से लथपथ पड़े थे। अस्पताल से करीब 50 मीटर की दूरी पर पुलिस पिकेट भी थी। वहां से सिपाही मौके पर पहुंचे। डॉक्टर की जांच की गई तो उनकी मौत हो चुकी थी। आसपास के लोगों ने बताया कि 5 गोलीयों की आवाज आई थी, ऐसे में आशंका है कि डॉक्टर को 5 गोली मारी गई। हालांकि, पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम में ही इसकी पुष्टि होगी। पुलिस ने बताया कि जलालपुर चौराहे पर मंडियाह रोड पर एक बिल्डिंग में ही डॉक्टर ने दो फ्लोर क्रियाएं पर ली हुई थी। बिल्डिंग में नीचे दुकान थी, जबकि बगल में लगी सीढ़ी से दूसरी और तीसरी फ्लोर पर जाने का रास्ता था। डॉ. तिलकधारी 9 साल से यहां अपना अस्पताल चला रहे थे। डॉक्टर की शादी नहीं हुई थी। पिता और डॉक्टर का पूरा परिवार गोपीपुर गांव में रहता था। डॉक्टर 5 बहनों में अकेले भाई थे। अस्पताल होने के चलते डॉक्टर अक्सर यहीं पर रुके जाते थे। वह गांव नहीं जाते थे। बुधवार रात को भी वह अस्पताल में ही रुक गए थे। पुलिस ने बताया कि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है। उससे लग रहा है कि किसी परिचित का हाथ है। क्योंकि, डॉक्टर के हॉस्पिटल में रकने की जानकारी बदमाशों की थी। सिर्फ यही नहीं, उनको यह भी पता था कि वह अस्पताल की तीसरी मंजिल पर सो रहे हैं। हत्या की सूचना पर सीओ केराकत गौरव शर्मा और इम्पेक्टर राजेश यादव मौके पर पहुंचे। जिस कमरे में हत्या हुई है उसको सील कर दिया गया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास के लोगों, स्टाफ और परिजनों से पूछताछ की। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगले। डॉक्टर की हत्या क्यों की गई? इस सवाल पर पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सभी एंगल पर जांच की जा रही है। अस्पताल के मैनेजर मनोज कुमार पाल ने बताया, "रात 2 बजकर 20 मिनट पर घटना हुई है। सेंकेड फ्लोर पर दो स्टाफ के लोग थे और डॉक्टर साहब के चाचा के लडुके थे। मैं घर में था। सूचना पर हम भाग कर आए। बदमाश सीढ़ी से ऊपर गए। तीन लोग थे। उन्हें पांच गोली लगी है। यहां किसी को पता ही नहीं चल पाया। उनकी किसी कोई दुश्मनी तो नहीं थी। न ही मुझे ऐसी कोई जानकारी है। सर ने भी कभी नहीं बताया था। अब घर में कोई बात हो तो पता नहीं। पुलिस घरवालों से यह पूछताछ कर रही है कि कहीं कोई किसी प्रकार का जमीनी विवाद तो नहीं है। इससे पहले कभी पिता या परिवार के अन्य सदस्य के साथ कोई वारदात तो नहीं हुई है। हालांकि, परिवार वालों ने किसी प्रकार की रंजिश से इनकार किया है। डॉक्टर के चाचा कमलेश पटेल का कहना है कि हमारी कोई रंजिश नहीं है, हम यहां पर पहुंचे तो पुलिस डेकबोर्डी लेकर जा रही थी। 34 वर्षीय डॉक्टर की अभी तक शादी नहीं हुई थी। ऐसे में पुलिस यह भी तलाश कर रही है कि कहीं कोई प्रेम-प्रसंग से जुड़ा मामला तो नहीं है। पुलिस डॉक्टर के मोबाइल को खंगाल रही है। इसके साथ ही परिवार वालों से भी इस मामले की जानकारी ले रही है। इसके साथ ही हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर यहां क्रिएट पर बिल्डिंग लेकर अस्पताल चला रहे थे। पिछले कुछ समय से डॉक्टर यहीं पर तीसरी मंजिल पर रहने लगे थे।

मृतक सतीश के परिजनों से मिले सांसद विजय दुबे

संवाददाता कुशीनगर। गुरुवार को नगर पालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड नं 3 सपहॉ नौका टोला निवासी सतीश चन्द्र यादव के निरम हत्या की जानकारी मिलने पर सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने शोकाकुल परिवार से मिलकर



दाढ़स बंधाया एवं शोकाकुल परिवार को हर सम्भव मदद के लिए आश्वस्त किया। साथ ही दूरभाष पर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल को घटना में दोषी आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त

कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। ज्ञात हो कि सोमवार को खरदह पुल पर वार्ड नं 3 सपहॉ नौका टोला निवासी सतीश चन्द्र यादव पुत्र राधेश्याम यादव की

मृतक के पिता और परिजनों को दाढस बढ़ाया और हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया और कहा की घटना में शामिल कोई भी अपराधी बक्शा नहीं जायेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कुशीनगर राकेश जायसवाल, चमन यादव, सांसद मॉडिया प्रभाषी निखिल उपाध्याय, सभासद सूर्यभान यादव, रामसेवक यादव, प्रवीण गुप्ता, संजय यादव, दीपक शर्मा, राकेश यादव आदि उपस्थित रहे।

जिला पंचायत राज अधिकारी ने ड्यूटी अनुपस्थित 6 सफाई कर्मचारियों को किया निलंबित

संवाददाता अमरोहा। जनपद अमरोहा में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा



कार्यवाही की गई है। आपको बता दे जिला पंचायत राज अधिकारी पारुल सिसोदिया ने विकासखंड गजरीला क्षेत्र के गांव मनौटा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत में गंदगी पाई गई। वहीं

ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी संजोव कुमार ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे।

इस दौरान जनपद की विकास खंडों की 6 ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए गए। इस दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी पारुल सिसोदिया ने सफाई कर्मचारियों पर कार्य कार्यवाही करते हुए 6 सफाई कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। हालांकि जिला पंचायत राज अधिकारी ने कहा है कि ड्यूटी पर समय से न पहुंचने वाले सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी की इस बड़ी कार्यवाही से सफाई कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

फिरोजाबाद: बच्ची की नजर उतारी, फिर नदी में लगाई छलांग, मौत

फिरोजाबाद। एक महिला ने यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी।



वह पति के साथ कार से मायके जा रही थी। रास्ते में बच्ची की नजर उतार कर नदी में सिकका डालने के बहाने कार रुकवाई और भागकर छलांग लगा दी। पति ने शोर मचाया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आसपास काम कर रहे किसान और ग्रामीण महिला को बचाने के लिए नदी में कूद गए। पुलिस को भी सूचना दी गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला। तब तक पुलिस भी आ गई। महिला को तुरंत मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। मैनपुरी के करहल के गांव अहमदपुर के रहने वाले अजय कुमार की आगरा की साधना यादव (26) की 15 महीने पहले शादी हुई थी। मैनपुरी में साधना ने 15 दिन पहले ही बच्ची को जन्म दिया

था। घर में खुशी का माहौल था। बुधवार शाम साधना पति अजय के साथ मायके जा रही थी। कार अजय चला रहे थे। साधना ने पीछे वाली सीट पर बच्ची को सुला दिया था। खुद आगे बैठी हुई थीं। फिरोजाबाद के मटसेना थाना क्षेत्र के गांव कोंडरा के पुल पर उसने पति से बच्ची की नजर उतार कर यमुना में सिकका डालने की इच्छा जताई। पति ने कार में बैठकर ही सिकका फेंकने की बात कही, लेकिन वह नहीं मानी। साधना पुल के किनारे से सिकका फेंकने की जिद पर अड़ी थी। उसका कहना था कि कार से फेंकने पर सिकका सड़क पर भी गिर सकता है। जब वह नहीं मानी तो अजय को कार रोकनी ही पड़ी। इसके बाद साधना तेजी से कार दरवाजा खोलकर बाहर निकली। जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक साधना ने पुल की रेलिंग पर चढ़कर नीचे यमुना में छलांग लगा दी। यह देखकर पति के होश उड़ गए। अजय ने बचाओ-बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर पुल से गुजर रहे लोग रुक गए। वहीं यमुना किनारे मौजूद ग्रामीण की भी नजर नदी में डूब रही महिला पर पड़ी। जिसके बाद वह लोग साधना को बचाने के लिए नदी में कूद गए। बड़ी मशक्कत के बाद

साधना को बाहर लाया गया। थोड़ी देर में मटसेना थाना प्रभारी पारुल मिश्रा फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं। अपनी गाड़ी से साधना को ट्रामा सेंटर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डाक्टर की सूचना पर मृतक के चचेरे भाई अवधेश और अन्य परिजन ट्रामा सेंटर पहुंचे। अवधेश ने बताया कि साधना से फोन पर बात हुई थी। उसने सुबह मायके आने की बात कही थी। उस समय तक ऐसी कोई बात नहीं लगी, जिससे ऐसा लगे कि साधना यह कदम उठा सकती है। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया। वहीं अजय के चचेरे भाई बंटे ने बताया कि कि कोई बात नहीं थी। अभी बच्ची पैदा हुई थी। तब से वह डिस्टर्ब चल रही थीं। कभी बीपी हाई हो जाता तो कभी लो हो जाता। भाई के साथ कार से मायके जा रही थीं। अचानक कहा कि नदी में सिकका डालना है, गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी तो बच्ची के सिर पर रूपए फेरकर उसकी नजर उतारी।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल के अंतर्गत युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा जनपद स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन

संवाददाता अमरोहा। जनपद अमरोहा के सिख इंटर कॉलेज नारंगपुर जोया में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल के अंतर्गत युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा जनपद स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें आज सीनियर वर्ग में बालक एवं बालिका दोनों में विभिन्न वर्गों से आए विजेता खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया दो दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आज समापन जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी जी द्वारा विजेता खिलाड़ियों को मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर

किया गया ! गुरेन्द्र सिंह हिल्लो कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिलाधिकारी महोदय द्वारा खिलाड़ियों को जीवन में शॉर्टकट न आनाने की सलाह दी गई एवं उन्हें जीवन में कड़ा परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया! एथलेटिक्स प्रतियोगिता का परिणाम 100 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग, प्रथम निशांत, द्वितीय सोविन्द्र, तृतीय उमेश, 100 मीटर दौड़ महिला वर्ग प्रथम रिया पंवार, द्वितीय सोनिका, तृतीय हिमाना, 200 मीटर दौड़ प्रथम वर्ग प्रथम सोविन्द्र, द्वितीय निशांत तृतीय उमेश कुमार, 200 मीटर दौड़ महिला वर्ग प्रथम प्रिया



पंवार, द्वितीय काजोल, तृतीय खुशी, 400 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग, प्रथम वंश, द्वितीय मोहम्मद ब्रियाल, तृतीय जितेंद्र, 1500 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग, प्रथम आकाश, द्वितीय जितेंद्र, तृतीय

सौरभ, लम्बी कूद पुरुष वर्ग प्रथम मोहित, द्वितीय आकाश, तृतीय कोविंद ऊंची कूद पुरुष प्रथम मनु यादव, द्वितीय मोहम्मद आकिव, तृतीय अरमान अली, गोला फेंक प्रथम विकास, द्वितीय बलविंदर,

तृतीय मयंक, भाला फेंक पुरुष प्रथम चिंदू, द्वितीय विशाल, तृतीय प्रीत चक्का फेंक पुरुष प्रथम हार्दिक, द्वितीय बनवीर, तृतीय बलविंदर सिंह, कबड्डी प्रतियोगिता पुरुष विजेता हसनपुर, उपविजेता गजरीला, वालीबॉल प्रतियोगिता पुरुष विजेता जोया, उपविजेता धनौरा, प्रतियोगिता के तिर्णायक मण्डल में पुरुजित सिंह, राजकुमार जी, सचिन गन्धर्व जी, रणवीर सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, देवेन्द्र सिंह, अलोक कुमार, जयदीप सिंह, विक्की कुमार, अयोधारी जी इत्यादि रहे। प्रतियोगिता के अन्त में जिला युवा कल्याण अधिकारी श्रेष्ठ कुमार द्वारा

कुमार जी ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, निर्णायक मण्डल और खिलाड़ियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने यह भी बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को जोन स्तरीय प्रतियोगिता में जोकि बरेली में आयोजित होगी में भाग लेना है। उक्त कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सिख इंटर कॉलेज नारंगपुर गुनमान सिंह, प्रबंधक राजवरीर सिंह, एवं पीआरडी जवान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में जिला युवा कल्याण अधिकारी श्रेष्ठ कुमार द्वारा सभी को धन्यवाद प्रेषित किया गया।

आइसीयू भर्ती पर निर्देश

अब अस्पताल किसी मरीज को उसकी या उसके परिवर्जन की सहमति के बिना गहन चिकित्सा इकाई यानी इंटींसिव केयर यूनिट (आइसीयू) में भर्ती नहीं कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि आइसीयू किसी अस्पताल का वह वार्ड होता है, जहाँ गंभीर रूप से बीमार, ऑपरेशन के बाद निगरानी की जरूरत वाले तथा बड़े आघात वाले रोगियों को रखा जाता है, जिन्हें 24 घंटे निरीक्षण और उपचार की आवश्यकता होती है। भारत में पहली बार आइसीयू भर्ती को लेकर सरकार ने निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि जब किसी रोगी के अंग काम नहीं कर रहे हों या उसकी तबियत बिगड़ने का अंदेश हो, तभी आइसीयू में उसे रखने का निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, आइसीयू में बिस्तरों की उपलब्धता और मरीजों की स्थिति के आधार पर तैयार प्राथमिकता को भी ध्यान में रखने को कहा गया है। इन निर्देशों में आइसीयू से बीमार को छुट्टी देने के लिए भी मानदंडों का निर्धारण किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ये निर्देश 24 प्रतिष्ठित चिकित्सकों द्वारा तैयार किया है। भर्ती और छुट्टी के इन स्पष्ट निर्देशों से चिकित्सकों और मरीज के परिवर्जनों के बीच भरोसा बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। निर्देश में डॉक्टरों को सलाह दी गयी है कि जोखिम और फायदे के आकलन के बाद ही वे मरीज को आइसीयू में भर्ती करें और स्थिति में अपेक्षित सुधार के बाद सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दें। ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि अस्पताल अधिक पैसा कमाने के लिए मरीजों को मनमाने ढंग से भर्ती कर लेते हैं और जरूरत न होने के बाद भी उनको छुट्टी नहीं करते। इससे मरीज पर आर्थिक बोझ पड़ता है और आइसीयू बिस्तरों की कमी भी हो जाती है। अब चिकित्सकों को परिवर्जनों को स्पष्ट रूप से वे कारक बताते होंगे, जिनके चलते वे मरीज को आइसीयू में रखना चाहते हैं। उपचार में खर्च ऐसी चीज है, जो अस्पताल और रोगी के संबंधियों के बीच भरोसे को हानि पहुंचाती है। आइसीयू से मरीज को छुट्टी देने का निर्णय पूरी तरह रोगी की हालत पर निर्भर होना चाहिए, न कि परिवार की सहमति पर। निर्देश में यह भी कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो, ऐसे फैसले इस आधार पर नहीं लिये जाने चाहिए कि परिवर्जनों के पास उपचार के लिए पैसे नहीं हैं। विशेषज्ञों की राय है कि देश में आइसीयू संसाधन सीमित हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल सोच-समझ कर किया जाना चाहिए। जब संसाधनों पर अधिक दबाव हो, तो महामारी और आपदा से त्रस्त लोगों को भी आइसीयू में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि इन निर्देशों को प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने सोच-विचार कर तैयार किया है, तो आशा की जानी चाहिए कि अस्पताल इन पर ठीक से अमल करेंगे।

सेबी पर भरोसा

पिछले एक साल से विवादों और सुर्खियों में रहने वाले अडानी हिंडनबर्ग मामले का सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पटाखे कर दिया है। हालांकि, अभी इसे पूरा पटाखे नहीं कहा जाएगा। मगर इस मामले में देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह पर जो 24 आरोप लगे थे, उनमें से 22 में ह्रस्वक्यूरीटी ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का यानी सेबी ने अडानी समूह को बेदाग करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार के अपने फैसले में कहा है कि सेबी की रिपोर्ट पर शक करने का कोई कारण नहीं है। समूह के खिलाफ बाकी दो आरोपों की अभी जांच चल रही है, इनमें समय लग रहा है, क्योंकि इनकी जांच का दायरा देश के बाहर जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में इनकी भी रिपोर्ट देने को कहा है। मुहावरे का इस्तेमाल करें, तो इस मामले में हाथी निकल गया और पूंछ भर बची है। यह मामला पिछले साल जनवरी में तब सुर्खियों में आया था, जब अमेरिका की एक कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर आरोप लगाया था कि इसके कारोबार में बहुत से घपले हैं और इस समूह ने अपने शेयरों के दाम बुलंद करने के लिए कई तरह की अनियमितताएं बरती हैं। ये आरोप काफी संगीन थे और तमाम राजनीतिक कारणों से इन पर काफी हंगामा भी शुरू हो गया है। यहाँ पर हिंडनबर्ग के कारोबार के तरीके की चर्चा भी जरूरी है। हिंडनबर्ग मुख्य रूप से दुनिया की बड़ी कंपनियों के भंडाफोंड के लिए जानी जाती है और इसके बाद जब बाजार में उन कंपनियों के शेयरों का भाव गिरते हैं, तो वह उनसे मुनाफा कमाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च का पूरा कारोबार यही है। रिपोर्ट सनसनीखेज थी, जिसके जवाब में अडानी समूह ने 413 पृष्ठ की अपनी सफाई पेश की। लेकिन जिस पर आरोप लगे हों, उसकी सफाई सुनाती ही कौन है? खासकर तब, जब वह मामला राजनीतिक रंग ले चुका हो। बहरहाल, कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और जनिहट याचिकाएं डालकर यह मांग करने लगे कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल, यानी एसआइटी का गठन किया जाए या फिर इसकी जांच सीबीआई जैसी जांच एजेंसी से कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच का काम सेबी को सौंपा था और इसके साथ ही जाने-माने विशेषज्ञों की एक कमेटी भी यह देखने के लिए बना दी थी कि कहीं नियामक इस मामले में नाकाम तो नहीं रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सेबी की जांच रिपोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि इस मामले में एसआईटी के गठन की अब कोई जरूरत नहीं है। अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने सेबी से यह भी कहा है कि उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि इस विवाद का फायदा उठाकर बाजार में कोई कारोबार या शॉर्ट सेलिंग तो नहीं की गई?

Social Media Corner

सब के हक में...



कच्चे तेल के दाम लुढ़क रहे हैं, पर मोदी सरकार की लूटखोरी पर कोई लगाम नहीं है। मोदी जी के मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि श्वेत कंपनियों से दाम घटाने के बारे में कोई बात नहीं हुई है। तेल कंपनियों हर एक लीटर पेट्रोल पर जनता से ₹8 से ₹10 और डीजल पर ₹3 से ₹4 मुनाफा कमा रही हैं। 50 सालों में सबसे कम हुई जनता की वचत का हिसाब, देश भाजपा के 'अच्छे दिन' के झूठे भाषणों और खोखले विज्ञापनों में ढूँढ रहा है।

(कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 'एक्स' पर पोस्ट)

राजधानी रांची के लवर कानून की फिर से पोल खुल गई। रातू थाना क्षेत्र में कोयला व्यापारी अभिषेक श्रीवास्तव को अपराधियों ने गोलीयां से छलनी कर दिया है। सूचना है कि अभिषेक को पीएलएफआई संगठन से पूर्व में धमकी भी मिली थी, इसके बावजूद पुलिस ने उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। लगातार इस प्रकार के अपराध घटित होने से राज्य सरकार के साथ-साथ पुलिस अधिकारी भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं। झारखंड पुलिस तत्परता दिखाते हुए अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करें।

(पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)



ANALYSIS

डॉ अश्विनी महाजन

तेल लॉबी की तीव्र पैरवी के बावजूद, 2050 तक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करने के लिए सभी देश जीवाश्म ईंधन- कोयला और तेल एवं गैस- से दूर जाने पर सहमत हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत हुए पूर्ववर्ती जलवायु सम्मेलनों में कुछ बातें हुईं, कहीं-कहीं पर मौसम परिवर्तन और वैश्विक उष्णता को थामने के लिए कुछ प्रयास भी हुए, लेकिन विकसित देशों की इस जिद, कि वे अपनी जीवन पद्धति बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, ने इन प्रयासों के प्रभाव को कम किया। यह सच है कि औद्योगीकरण के समय से लेकर अब तक 23 समृद्ध देश कुल ऐतिहासिक उत्सर्जन के 50 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं और बाकी के लिए 150 से अधिक देश जिम्मेदार हैं। लगभग एक सदी में तेल और गैस का उपयोग 82.34 गुना और कोयले का उपयोग 4.56 गुना बढ़ा है। इसमें ही विकसित देशों का योगदान विकासशील देशों की तुलना में ज्यादा है। आधुनिकीकरण और विकास के नाम पर वाहनों के उपयोग में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आर्थिक संवृद्धि के नाम पर औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है। आज लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपयोग करने लगे हैं। वाहनों, उद्योगों, कृषि आदि के परिचालन में पेट्रोलियम पदार्थों सरीखे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग काफी बढ़ा है। ऐसे में विश्व ग्लोबल

बीते माह दुबई में आयोजित जलवायु सम्मेलन- कॉप 28- को नतीजों तक पहुंचने में तय सीमा से ज्यादा समय लगा, लेकिन इस बावत खुशी जतायी जा रही है कि इस सम्मेलन के बाद दुनिया में मानव जनित ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बेहतर संभवनाएँ होंगी। तेल लॉबी की तीव्र पैरवी के बावजूद, 2050 तक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करने के लिए सभी देश जीवाश्म ईंधन-कोयला और तेल एवं गैस- से दूर जाने पर सहमत हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत हुए पूर्ववर्ती जलवायु सम्मेलनों में कुछ बातें हुईं, कहीं-कहीं पर मौसम परिवर्तन और वैश्विक उष्णता को थामने के लिए कुछ प्रयास भी हुए, लेकिन विकसित देशों की इस जिद, कि वे अपनी जीवन पद्धति बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, ने इन प्रयासों के प्रभाव को कम किया। यह सच है कि औद्योगीकरण के समय से लेकर अब तक 23 समृद्ध देश कुल ऐतिहासिक उत्सर्जन के 50 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं और बाकी के लिए 150 से अधिक देश जिम्मेदार हैं। लगभग एक सदी में तेल और गैस का उपयोग 82.34 गुना और कोयले का उपयोग 4.56 गुना बढ़ा है। इसमें भी विकसित देशों का योगदान विकासशील देशों की तुलना में ज्यादा है। आधुनिकीकरण और विकास के नाम पर वाहनों के उपयोग में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आर्थिक संवृद्धि के नाम पर औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है। आज लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपयोग करने लगे हैं। वाहनों, उद्योगों, कृषि आदि के परिचालन में पेट्रोलियम पदार्थों सरीखे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग काफी बढ़ा है। ऐसे में विश्व ग्लोबल

राम मंदिर को लेकर ऊहापोह में है कांग्रेस

कोई शक नहीं है कि बाइस जनवरी की तारीख देश के सांस्कृतिक क्षितिज पर नयी इबारत दर्ज करने जा रही है। राम मंदिर आंदोलन की परिणति दुनिया देख रही है। इसी आधार पर यह मानने से गुरेज नहीं है कि जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को वामपंथी इतिहासकार नकारते रहे हैं, अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना के साथ वह मूर्त रूप लेने की ओर अग्रसर है। इस पर भी संशय नहीं है कि इसके बाद देश की राजनीति भी बदलने जा रही है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी को इससे जुड़ी राजनीति को लेकर संशय है। राम मंदिर न्यास ने ऐतिहासिक दिन के लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खारो और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रित किया है। लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब तक फैसला नहीं ले पाया है

कि उसे इस समारोह में शामिल होना चाहिए या नहीं। राम मंदिर का ताला खोलने के अलावा कांग्रेस की जितनी भी कोशिशें रही हैं, वे मंदिर के विरोध में रही हैं। अलबत्ता इस विरोध के लिए वह राजनीति को धर्म से अलग करने का तर्क देती रही है, लेकिन जब संदर्भ अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों, का होता है, तो सेकुलरवाद के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म आधारित राजनीति को तवज्जो देने से वह कभी नहीं हिलेगी। केंद्रीय राजनीति में राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा के उभार के पहले तक कांग्रेस ही अल्पसंख्यक वोटों की पहली पसंद रही। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के उभार के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मुस्लिम वोटों ने स्थानीय दलों का दामन थाम लिया। राम मंदिर आंदोलन के उभार के वक्त कांग्रेस ऊहापोह में रही। उसे अल्पसंख्यक केंद्रित राजनीति की सीमा का भान था। इसीलिए वह मंदिर के खिलाफ



वैसा कड़क स्टैंड नहीं ले पायी, जैसा मुलायम सिंह और लालू प्रसाद ने लिया। झीने आवरण में जारी उसके अल्पसंख्यकवाद की पोल मंदिर आंदोलन ने खोल दी, तो उसका पारंपरिक सवर्ण, विशेषकर ब्राह्मण, वोट बैंक भी साफ छोड़ गया। उन्हीं दिनों दलितों के नये रहनुमा भी उभरे, तो दलितों ने भी कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया। कांग्रेस के पास ठोस वोट बैंक बनाने को लेकर ना तो कोई ठोस योजना नजर आयी, ना ही वह कभी मजबूत रख ले पायी। यह ऊहापोह राहुल की कांग्रेस में ज्यादा दिखा। गुजरात के 2017 के

विधानसभा चुनाव में मंदिर-मंदिर माथा टेकना हो या फिर कर्नाटक के 2018 के चुनाव में मंदिरों का दर्शन करना हो या फिर लोकसभा चुनाव के वक्त देश के कथित सेकुलर रूप को बचाने का दावा हो, राहुल वाली कांग्रेस हर बार ऊहापोह में नजर आयी। यही ऊहापोह रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी दिख रहा है। कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि उसे राम का साथ देना चाहिए या नहीं। इसकी बड़ी वजह है कि कर्नाटक चुनाव से कांग्रेस के पाले में अल्पसंख्यक वोट बैंक थोक भाव से लौट रहा है। इसका असर

तेलंगाणा में भी दिखा। कांग्रेस को भ्रम है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और असम का मुस्लिम वोटर उसके पास लौटेगा। हालांकि अनुपातिक रूप से सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट वाले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति खास मजबूत नजर नहीं आ रही। कांग्रेस को ऊहापोह में रखने में राहुल और प्रियंका के वामपंथी सलाहकार मंडली प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस को शायद दूर रहने की सलाह दे रही है। राम मंदिर को लेकर अतीत में कांग्रेस और उसके कद्दावर नेताओं ने ऐसी गलतियां की हैं, जिनकी वजह से बहुसंख्यक वोटों के बड़े हिस्से में नाराजगी रही। उल-जलूल बयानों ने कांग्रेस को अक्सर नुकसान पहुंचाया है। मंदिर

मुद्दे को केंद्रीय राजनीति की धुरी बनते देख लगता है कि कांग्रेस में भी दुविधा बढ़ रही है। कांग्रेस का एक वर्ग सोच रहा है कि अयोध्या के समारोह में शामिल होना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राम मंदिर ट्रस्ट ने निमंत्रण नहीं भेजा है। इसे लेकर लगता है कि उन्हें तकलीफ है। राजनीति में राम नये हलके को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी समझने लगे थे। अब कांग्रेस के कुछ बागरी सलाहकार यह सलाह दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस को मुख्याधारा की राजनीति में बने रहना है, तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना चाहिए। यह सच है कि राम मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश के एक कांग्रेसी मंत्री ने अस्सी के दशक में आवाज उठायी थी। अगर तभी से कांग्रेस संतुलित रख अखिरवार किये रहती, तो किंहार, अल्पसंख्यक वोट बैंक भले ही खिसकता, बहुसंख्यक वोटों के एक बड़े वर्ग की वह चहेती बनी रह सकती थी।

ये लेखक के निजी विचार हैं।



वार्मिंग और मौसम परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। समुद्र स्तर बढ़ने के कारण तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग विस्थापित हो रहे हैं, कहीं अल्प वृष्टि, कहीं अति वृष्टि और तूफानों के कारण दुनिया विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना कर रही है। कृषि उत्पादन पर भी संकट आ रहे हैं। कई स्थानों पर तापमान इतना अधिक बढ़ता जा रहा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। मौसम परिवर्तन पर होने वाले तमाम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में प्रायः से ही यह लक्ष्य रहा है कि दुनिया का तापमान 2050 तक औद्योगीकरण से पूर्व की स्थिति की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ने पाये। वोटों सम्मेलन, जहाँ ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, के बाद कॉप सम्मेलनों में बातें तो बहुत हुईं, लेकिन वोटों सम्मेलन के बाद और कॉप-27 से पहले कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई दी। विकसित देशों ने यह वचन जरूर दिया था कि मौसम परिवर्तन से निपटने के लिए 100 अरब डॉलर की सहायता हर वर्ष प्रदान करेंगे। हालांकि यह मदद

समस्या की गंभीरता के मद्देनजर अपर्याप्त थी, पर उतनी राशि भी विकसित देशों द्वारा नहीं दी गयी। इससे स्पष्ट है कि विकसित देश, जो वर्तमान पर्यावरण संकट के लिए दोषी हैं, अभी तक इस बावत गंभीर नहीं हुए थे। कॉप 28 में भी विकसित दुनिया द्वारा जीवाश्म ईंधन से संक्रमण की लागत वहन करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि यह सहमति बनी है कि जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जायेगा, लेकिन इसके लिए गंभीरता से विचार करना होगा कि यह कैसे होगा। सम्मेलन में अनेक शपथें ली गयीं, जिसमें अक्षय ऊर्जा में तीन गुना वृद्धि, शीतलन से संबंधित ऊर्जा उपभोग में दुगुनी कार्यकुशलता आदि शामिल हैं। पिछले सम्मेलनों में यह बहस चलती रही कि जीवाश्म ईंधनों में से कोयला या पेट्रोलियम, किसके उपयोग को कम करना चाहिए। विकसित देशों का कहना था कि वे पेट्रोलियम उपयोग को कम नहीं करेंगे, लेकिन वे दबाव बना रहे थे कि भारत सरीखे देश कोयले के उपयोग को अवश्य बंद करें। इस बार फिर

विकसित देश अंतिम दस्तावेज में शामिल होने में सफल रहे हैं, जब नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना करने को 'बेरोकटोक कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने' से जोड़ा गया। यह माना जा सकता है कि कोयले से उत्सर्जन पेट्रोलियम पदार्थों के उत्सर्जन से ज्यादा होता है। लेकिन इस बहस में भारत का यह कहना था कि यदि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को क्रमशः कम करना है, तो इसमें कोयले और पेट्रोलियम पदार्थों में भेद नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि भारत के पास कोयले के बड़े भंडार हैं, इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि फिलहाल वह कोयले का उपयोग कुछ समय तक करे और बाद में उसे क्रमशः घटाया जाए। हालांकि कॉप 28 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित लक्ष्यों, खासकर वैश्विक तापमान औद्योगीकरण से पूर्व की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जायेगा, की समय सीमा 2050 रखी गयी है, लेकिन कॉप 26 में भी कि भारत सरीखे देश कोयले के उपयोग को अवश्य बंद करें। इस बार फिर

जुकरबर्ग ने मेटा के आधा अरब डॉलर के शेयर बेचे

नई दिल्ली ।

मार्क जुकरबर्ग ने 2023 के आखिर दो महीनों में मेटा प्लेटफॉर्म के लगभग आधा अरब डॉलर के शेयरों की बिक्री की। इस दौरान कंपनी के शेयर की कीमत सात साल में सबसे कम हो गई। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार मेटा के मुख्य कार्यकारी ने 1 नवंबर से साल के आखिर के बीच हर कारोबारी सत्र के दौरान शेयरों की बिक्री की, इस दौरान लगभग 42.8 करोड़ डॉलर में करीब 1.28 मिलियन शेयर बेचे गए। औसतन प्रत्येक बिक्री में 10.4 मिलियन डॉलर के शेयर बिके, जिसमें 28 दिसंबर को सबसे अधिक 17.1 मिलियन डॉलर के शेयर बेचे गए। इससे पहले

जुकरबर्ग ने नवंबर 2021 से मेटा के शेयर नहीं बेचे थे। कंपनी के शेयर की कीमत 2022 के ओ खिर में सात साल के निचले स्तर से पिछले साल 194 फीसदी बढ़ी थी। मेटा शेयरों ने पिछले साल एनवीडिया कॉर्प को छोड़कर हर अन्य प्रमुख तकनीकी दिग्गज से बेहतर प्रदर्शन किया और अब यह सितंबर 2021 के रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब है। ब्यूमबर्ग बिलियनेयरस इंडेक्स के अनुसार 39 वर्षीय जुकरबर्ग मेटा के लगभग 13 फीसदी शेयरों के मालिक हैं और उनकी कुल संपत्ति लगभग 125 बिलियन डॉलर है, जिससे वह दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जुकरबर्ग की ओर से मेटा के शेयरों की बिक्री पर टिप्पणी के अनुरोध का कंपनी की ओर से जवाब नहीं दिया। टेक जगत



में जुकरबर्ग के समकक्ष मार्क बेनिओफ ने भी 2023 की दूसरी छमाही में लगभग हर दिन शेयर बेचे। सेल्सफोर्स के सह-संस्थापक ने इस अवधि के दौरान 475 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के शेयर बेचे। इस दौरान हर दिन लगभग 15,000 शेयर बेचे गए जिनका मूल्य लगभग 3 मिलियन डॉलर था।

वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आईटी सेक्टर में आ सकती है नरमी



नई दिल्ली ।

मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर के दौरान खर्चों पर सख्ती और कुछ मामलों में छुट्टियों के कारण आईटी सेक्टर में नरमी देखी जा सकती है। बाजार की करीबी नजर मांग परिदृश्य और ग्राहकों के बजट पर टिकी हुई है मगर जेनेरेटिव एआई की बढ़ती लोकप्रियता पर भी नजर रखी जाएगी। खास तौर पर ऐसे समय में जब ऐक्सचेंजर ने अपने तिमाही नतीजों में ऐसे काम पर अच्छा रूझान बताया।

विश्लेषकों को उम्मीद है कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और एलटीआई माइंडट्री जैसी लार्ज-कैप आईटी सेवा कंपनियों की राजस्व वृद्धि में 1.5 फीसदी की कमी से लेकर 4.6 फीसदी के बीच वृद्धि रह

सकती है। अधिकतर विश्लेषकों को लगता है कि इस तिमाही में मिड-कैप कंपनियों का प्रदर्शन लार्ज-कैप कंपनियों की तुलना में बेहतर रहेगा।

नोमुरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च के एक नोट में कहा गया है, तकनीक का अधिक इस्तेमाल करने वाले उद्योगों में लागत का दबाव बढ़ेगा और ग्राहकों की बदलती प्राथमिकता में तेजी दिखेगी। नतीजतन लघु अवधि में ग्राहकों के आईटी बजट में स्वचालन और लागत घटाने पर जोर दिखेगा और मध्यावधि में भारतीय आईटी सेवा कंपनियों के लिए विदेश में काम बढ़ेगा। छुट्टियों की लंबी अवधि के कारण परिचालन मार्जिन पर दबाव बरकरार रहेगा। इन्फोसिस और विप्रो के मामले में वेतन वृद्धि के कारण मार्जिन प्रभावित हो सकता है।

सोना और चांदी की कीमतों में तेजी



नई दिल्ली ।

बुधवार को बड़ी गिरावट के बाद गुरुवार को सोने और चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। बुधवार को सोना मामूली तेजी के साथ खुलने के बाद करीब 750 रुपये की गिरावट के साथ बंद हुआ था। चांदी के वायदा भाव भी करीब 1,600 रुपये गिरे थे। वहीं गुरुवार को सोना शुरुआत में 62,700 रुपये और चांदी 72,350 रुपये के करीब कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजार में सोने और चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेज रही।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 217 रुपये की तेजी के साथ 62,724 रुपये के भाव पर खुला। फिलहाल यह कॉन्ट्रैक्ट 193 रुपये की तेजी के साथ 62,700 रुपये पर कारोबार कर रहा था। चांदी के

वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क मार्च कॉन्ट्रैक्ट 90 रुपये की तेजी के साथ 72,423 रुपये के भाव पर खुला। खबर लिखे जाने के समय यह कॉन्ट्रैक्ट 38 रुपये की तेजी के साथ 72,371 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक बाजार में सोने और चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। कॉमिक्स पर सोना 2,049.30 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,042.80 डॉलर था। फिलहाल यह 8.50 डॉलर की तेजी के साथ 2,051.30 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमिक्स पर चांदी के वायदा भाव 23.19 डॉलर के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 23.15 डॉलर था। फिलहाल यह 0.01 डॉलर की मामूली तेजी के साथ 23.16 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

लोकसभा चुनाव से पहले भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा: गोयल

नई दिल्ली ।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2 से 2.5 साल में यह 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का आंकड़ा छू लेगा।

गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी में आत्मनिर्भर भारत उत्सव के शुभारंभ पर कहा कि अनुमान के

अनुसार भारत 2027 तक दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी होगी। लोकसभा चुनाव इस साल अप्रैल-मई के आसपास होने की संभावना है। मंत्री ने जीडीपी के लिए पूर्वानुमान बढ़ाया है, क्योंकि अब तक के आधिकारिक अनुमानों के अनुसार 31 अप्रैल, 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्तवर्ष के पूरा होने पर अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छूने की उम्मीद है।

2028 तक देशों के जीडीपी अनुमानों के लिए अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विश्व आर्थिक आउटलुक डेटा 2026 में भारत की जीडीपी 4.95 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाता है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और चालू वित्तवर्ष 24 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 7.6 प्रतिशत की मजबूत विकास दर दर्ज की है।

इसने आईएमएफ और आरबीआई को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया है। गोयल ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह नहीं है कि भारत आयात विरोधी है। हम अपना निर्यात बढ़ाएंगे और इसके लिए अगर हमें कुछ उत्पादों का आयात करने की जरूरत होगी, तो हम ऐसा करेंगे।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुंबई ।

घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त पर बंद हुआ। इसी के साथ ही पिछले दो दिनों से जारी गिरावट पर अंकुश लग गया। दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बाद भी खरीददारी हावी रहने से बाजार ऊपर आया है। अज के कारोबार के दौरान व्यापक बाजारों में भी उछाला आया। बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 1.5 फीसदी और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1 फीसदी की बढ़त देखी गयी। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों वाला मानक सूचकांक संसेक्स 490.97 अंक करीब 0.69 फीसदी ऊपर आकर 71,847.57 अंक पर बंद हुआ। संसेक्स आज 71,546.60 और

71,954.79 के बीच कारोबार करता रहा। वहीं पचास शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 141.25 अंक तकरीबन 0.66 फीसदी ऊपर आकर 21,658.60 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 21,564.55 और 21,685.65 के बीच रहा। इससे पहले आज सुबह वैश्विक बाजारों में गिरावट के बावजूद बाजार ने बढ़त हासिल की। बीएसई संसेक्स 300 अंक बढ़कर 71,650 पर और एनएसई निफ्टी 50 78 अंक बढ़कर 21,600 पर पहुंच गया। वैश्विक बाजारों के गिरावट के रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई जिससे संसेक्स 500 से ज्यादा अंक फिसलकर बंद हुआ। आईटी के साथ-साथ


वित्तीय कंपनियों के शेयर में बिकवाली और इंडेक्स में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट का भी बाजार पर असर पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली आईटी इंडेक्स 2.52 प्रतिशत गिर गया। यह 21 जुलाई, 2023 के बाद से इसकी सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है।

वहीं एशिया बाजार में जापान में लंबे अंतराल के बाद व्यापार फिर से शुरू होने पर निफ्टेई में 2 प्रतिशत की गिरावट आई। अमेरिका में रातो-रात एसएंडपी 500 में 0.8 फीसदी की गिरावट आई, डॉव में 0.76 फीसदी की गिरावट आई और नैस्डैक में 1.18 फीसदी की गिरावट आई।



इंडिगो ने ईंधन शुल्क वसूलना किया बंद

नई दिल्ली । विमानन कंपनी इंडिगो ने विमान ईंधन की कीमतों में गिरावट आने के बाद गुरुवार से ईंधन शुल्क वसूलना बंद करने की घोषणा की है। एयरलाइन ने एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की कीमतों में उछाल के बाद अक्टूबर 2023 की शुरुआत से ईंधन शुल्क वसूलना शुरू किया था। गुरुवार 04 जनवरी से इसे हटा दिया गया। विमानन कंपनी के अनुसार, हाल ही में एटीएफ की कीमतों में गिरावट के कारण ईंधन शुल्क वापस ले लिया गया है। इंडिगो की ओर से जारी एक बयान के अनुसार एटीएफ की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहता है इसलिए हम कीमतों या बाजार स्थितियों में किसी भी बदलाव से निपटने के लिए अपने किराए और उसके घटकों को समायोजित करना जारी रखेंगे। ईंधन शुल्क एयरलाइन की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू किया गया था।



गौतम अडानी ने बेटे को दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया एमडी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अडानी ग्रुप की एक कंपनी ने अपने बोर्ड में बड़ा फेरबदल किया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने बताया कि गौतम अडानी को कार्यकारी अध्यक्ष, करण अडानी को एमडी और अश्वनी गुप्ता को सीईओ नियुक्त किया गया। अडानी पोर्ट्स ने यह भी कहा कि उसके बोर्ड ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये तक के धन जुटाने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने गौतम अडानी को 4 जनवरी 2024 से लेकर 30 जून, 2027 तक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। करण अडानी को 4 जनवरी, 2024 से उनके वर्तमान कार्यकाल के अंत यानी 23 मई, 2027 तक एमडी बनाया है। कंपनी ने इसके साथ ही 4 जनवरी, 2024 से कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अश्वनी गुप्ता की नियुक्ति की है। कंपनी ने फाइलिंग में बताया कि शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बाद नियुक्ति संबंधी बाकी के फैसले लिए जाएंगे। वहीं सभी शर्तें अपरिवर्तित रखी गई हैं और कंपनी के निदेशक मंडल ने नामांकन को पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर यह बदलाव किया है।

नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली से सीधे जोड़ा जाएगा, 32 किमी की होगी लंबाई

ग्रेटर नोएडा ।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुद्ध ही कॉमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरेगी। दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसके लिए करीब 32 किमी का एक नया एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेस वे दिल्ली के कालिंदी कुंज से वाया नोएडा सेक्टर-150 होते हुए आगरा एक्सप्रेस को जोड़ेगा। दिल्ली में इसे मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेस वे से एक रोडरी के जरिए जोड़ा जा सकता है। प्राथिकरण की मंशा है इस एक्सप्रेस को नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचएआई) बनाए। इसके लिए प्राथिकरण एनएचएआई के संपर्क में है। इसके बनने के दो बड़े फायदे हैं। पहला नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से वाहनों का भार कम हो जाएगा। साथ ही पूर्वी दिल्ली के इलाकों की नोएडा

एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। समिति की ओर से हाल के दिनों में नए एक्सप्रेस वे के लिए सर्वे किया गया। ये सर्वे नोएडा के सेक्टर-94 यानी यमुना पुरता से लेकर सेक्टर-150 करीब 28 किमी तक का किया गया। यहां दो विकल्प दिए गए। पहला एक्सप्रेस वे समानांतर पुरता के साथ एक एक्सप्रेस वे बनाया जाए या फिर मौजूदा एक्सप्रेस वे के ऊपर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाए। दरअसल, प्राथिकरण एनएचएआई से ही इसका निर्माण करवाना चाहता है। इसलिए पहले विकल्प पर ही काम होगा और इसे मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा। ट्राईफेक



भार के अनुसार इसे छह लेन का बनाया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेस वे दोनों एंड पर दो रोडरी बनानी होंगी। पहली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे के लिए जिसे कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के आसपास बनाया जा

सकता है क्योंकि ये एक्सप्रेस वे यही से होकर आगरा यमुना नहर के साथ फरीदाबाद में प्रवेश करेगा। दूसरा सेक्टर-150 के पास जहां से इस एक्सप्रेस वे को क्लोवर लीफ के जरिए यमुना से जोड़ा जाएगा।

रेलवे सुरक्षा बल में सब-इंस्पेक्टर के 2,250 पद भरे जाएंगे

- कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए नियमावली जारी नई दिल्ली ।

रेलवे सुरक्षा बल में वर्ष 2024 में भर्ती के तहत कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के कुल 2,250 पदों को भरा जाएगा, जिसमें से कॉन्स्टेबल के 2,000 पद और सब-इंस्पेक्टर के 250 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती की ओ अधिकारी ओ अधिसूचना बोर्ड की वेबसाइट आरपीएफ डेट इंडिया रेलवे डॉट जीओवीआइएन पर जल्द ही जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे आरपीएफ कॉन्स्टेबल और एसआई पदों के लिए जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन पीडीएफ को अच्छी

तरह से पढ़ लें और उसके बाद ही आवेदन करें। भर्ती के लिए 3 चरणों वाली चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का आयोजन आरआरबी द्वारा किया जाएगा। दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और आखिरी चरण में दस्तावेजों का परीक्षण रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किया जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार कॉन्स्टेबल पदों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) उत्तीर्ण तथा एसआई के लिए स्नातक कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे।

कॉन्स्टेबल (एजीक्यूटिव) और सब-

इंस्पेक्टर (एजीक्यूटिव) दोनों ही पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना अधिसूचना जारी होने के वर्ष में 1 जुलाई से की जाएगी। हालांकि, अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता तथा आयु सीमा के साथ-साथ उम्मीदवारों को निधारिक शारीरिक मानकों को भी पूरा करना होगा। पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई न्यूनतम 165 सेमी और महिलाओं की 157 सेमी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों को चैप्ट कम से कम 80 सेमी होनी चाहिए और फुलनाव के साथ न्यूनतम 85 सेमी होनी चाहिए।

सेबी ऐसी व्यवस्था करे कि संदिग्ध संस्थाएं कारोबार जगत को निशाना न बना पाएं

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह रेखांकित कर रहा है कि सेबी और सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जिससे संदिग्ध इरादों वाली हिंडनबर्ग और ओसीसीआरपी जैसी संस्थाएं भविष्य में देश के कारोबार जगत को निशाना न बना पाएं। एक वर्ष पहले जब अमेरिकी शार्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया था कि अदानी समूह अपने शेयरों में हेराफेरी कर रहा है तो उससे केवल इस समूह को ही नुकसान नहीं पहुंचा था बल्कि भारतीय निवेशकों के अच्छे-खासे पैसे भी डूब गए थे। इसके अतिरिक्त अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी अमीरों की सूची में तीसरे नंबर से खिसककर 25वें नंबर पर पहुंच गए थे। अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह कर कांग्रेस और साथ ही उन तत्वों को बड़ा झटका दिया है, जो इस मामले को लेकर अदानी समूह के साथ केंद्र सरकार को भी घेरने में लगे हुए थे कि सेबी की जांच में कोई खामी नहीं है और विशेष जांच दल गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है कि ऐसी जनहित याचिकाएं स्वीकार नहीं की जा सकतीं, जिनमें पर्याप्त शोध की कमी हो और जो अप्रमाणित रिपोर्टों को सच मानती हों।



जानकारी

कान दर्द से बचने के घरेलू नुस्खे

कान दर्द के घरेलू उपाय

कान में होने वाला दर्द बहुत असहनीय होता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं जैसे कान पर चोट लग जाना या किसी प्रकार की समस्या आदि। इनसे बचने के लिए घर पर ही कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो कान दर्द से निजात



दिलाती हैं। आइए जानें कान दर्द के घरेलू नुस्खों के बारे में मेथी

पांच ग्राम मेथी के बीज एक बड़ा चम्मच तिल के तेल में गरम करें। इसे छानकर शीशी में भर लें। हर रोज सुबह-शाम दो बूंद इसे कान में डालें। इसे कान पाप का उम्दा इलाज माना गया है।

यूकेलीप्टस का तेल एक कटोरे में उबाला हुआ पानी लें, इसमें यूकेलीप्टस के तेल की कुछ बूंदें और एक चम्मच विवस मिला दें अब एक तौलिय से अपने सिर को अच्छी तरह से ढक लें और नाक से सांस के माध्यम से वायु को जितना हो सके अंदर खींचें, यह अंदर के दबाव को कम कर कर्णसाव को बाहर निकालने में मदद करता है।

नमक से सिंकाई चार पांच चम्मच नमक को सौंपने में तबतक घोंभी आंच पर भूनें जब तक की यह भूरे रंग का न हो जाए, अब इस गर्म किए हुए भूनें नमक को एक साफ कपड़े पर अच्छी तरह से लपेट लें और इसे कान के प्रभावित हिस्से में दो से पांच मिनट तक रखें। आप सूजन और दर्द में आराम महसूस करेंगे।

विटामिन सी का सेवन अपने भोजन में अधिक से अधिक विटामिन-सी युक्त पदार्थों जैसे अमरूद, नींबू, संतरे, पीपते आदि फलों का प्रयोग करें ये कान में होने वाले दर्द को कम करने

में उपयोगी होते हैं। **सिरका** सफेद सिरके (वेनेगर) एवं रबिंग एल्कोहल के मिश्रण को दो बूंद ड्रॉपर की मदद कान में डालकर कान को कुछ समय लगभग एक घंटे) तक रुई से ढेक कर देने और इसी क्रम को बार-बार दुहराने से संक्रमण ठीक होता है।

अदरक कान में दर्द की समस्या को नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर कान में दर्द हो रहा है तो अदरक का रस निकालकर दो बूंद कान में पड़का देने से भी दर्द और सूजन में काफी आराम मिलता है।

लहसुन लहसुन की दो कलियों को अच्छी तरह से धुएँ लें अब इसमें एक चुटकी नमक मिलाकर ऊनी कपड़े से बनाई गई पुट्टीस को दर्द वाले हिस्से के ऊपर रखें ,इससे दर्द में आराम मिलेगा।

प्याज का रस प्याज का रस निकाल लें, अब रुई के फ्राये या किसी बूनें कपड़े के टुकड़े को इस रस में डुबाएँ। अब इसे कान के ऊपर निचाड़ दें, इससे कान में उत्पन्न सूजन दर्द, लालिमा एवं संक्रमण को कम करने में मदद मिलती है।

सरसों का तेल दो या तीन बूंद सरसों का तेल संक्रमण युक्त कर्णवेदना में लाभ देता है। एक साफ सुथरे तौलिये को गर्म पानी में डुबाएँ और इसे संक्रमण युक्त कर्ण के हिस्से के ऊपर दबाते हुए लगभग 20 मिनट तक रखें यह कर्णवेदना से तुरंत आराम देता है।

तुलसी की पतियाँ तुलसी के पत्तों का रस गुनगुना कर दो-दो बूंद सुबह-शाम डालने से कान के दर्द में राहत मिलती है। अगर अवसर कान में दर्द होता है तो यह नुस्खा बहुत ही असरकारी साबित हो सकता है आपके लिए। तुलसी के पत्तों में औषधीय गुण होते हैं जो दर्द में आराम दिलाते हैं।



थायराइड के मरीज को कभी नहीं करना चाहिए इन 5 चीजों का सेवन

थायराइड एक किस्म का हार्मोन है। हमारे थायराइड ग्लैंड्स शरीर से आयोडीन लेकर इन्हें बनाते हैं। ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। जब ग्लैंड्स किसी वजह से ज्यादा हार्मोन बनाते लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि थायराइड बढ़ गया है। थायराइड का बढ़ा होना बड़ी दिक्कत देता है। महिलाएँ इसकी सबसे ज्यादा शिकार होती हैं। इससे वजन बढ़ने के साथ ही बेचैनी, ठीक से नींद न आना, पौरियड का टाइम पर न आना, दिल की धड़कन बढ़ना जैसी परेशानियाँ होने लगती हैं।

ज्यादा होने से परेशान हैं, उन्हें ऐसे खाने से परहेज करना चाहिए, जिनमें खूब आयोडीन हो। सी फूड और आयोडीन वाले नमक को अर्बोड करे।

एल्कोहल एल्कोहल यानी शराब, बीयर आदि शरीर में एनर्जी लेवल को प्रभावित करते हैं। इससे थायराइड से ग्रसित लोगों की नींद में दिक्कत की शिकायत और बढ़ जाती है। इसके अलावा इससे ओस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। शराब तो किसी के लिए अच्छी नहीं होती। इसकी वजह से मोटापा भी बढ़ता है।

वनस्पति धी भारत में आमतौर पर हम इसे डालडा घी बोलते हैं। इस घी को दरअसल वनस्पति तेल को हाइड्रोजन में से गुजारकर बनाया जाता है। इस घी का इस्तेमाल खाने-पीने की दुकानों में जमकर होता है। इससे अच्छे कॉलेस्ट्रॉल खत्म होते हैं और बुरे बढ़ते हैं। बढ़े थायराइड से जो परेशानियाँ पैदा होती हैं, ये उन्हें और बढ़ा देता है।

रेड मीट रेड मीट में कॉलेस्ट्रॉल और सेचुरेटेड फैट बहुत होता है। इससे वेट तेजी से बढ़ता है। थायराइड वालों का वेट तो वैसे ही आगे की ओर भाता है। इसके अलावा रेड मीट खाने से थायराइड के रोगियों को बदन में जलन की शिकायत होने लगती है। आप चिकन वगैरा ले सकते हैं, चिकन की चेस्ट में अच्छे प्रोटीन होता है और उससे फैट बढ़ने की दिक्कत नहीं होती।

योग से दूर करें थायराइड

थायराइड की समस्या थॉयरोक्सिन हार्मोन के असंतुलन के कारण होती है। इस हार्मोन की वजह से पूरे शरीर की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है, जिसमें उर्जा में कमी, चिड़चिड़ापन, वजन असंतुलन, रक्तचाप आदि लक्षण शामिल हैं। योग से शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कायकल्प प्राचीन पद्धति का तरीका है। योग के विभिन्न आसन थायराइड पर नियंत्रण पाने के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसके लिए आपको नियमित योगाभ्यास की जरूरत होती है। आइए जानें कोन-कोन से आसन करके थायराइड के रोग को योग द्वारा भंगया जा सकता है।

विपरीत करणी आसन सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएँ फिर अपने दोनों हाथों और दोनों पैर आपस में जोड़ें। अब दोनों पैरों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएँ। पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री तक आकर पैरों को रोक लें। अब दोनों हाथों को नितंबों पर रखकर पैरों को ऊपर उठाएँ और दोनों कर्णियों को जमीन पर ही रखें। अब पैरों को सीधा रखें और हथेलियों के सहारे कमर को ऊपर उठाने का प्रयास करें। इसके बाद धीरे-धीरे वापस हाथों के सहारे कमर को नीचे लाएँ। फिर पैरों को 90 डिग्री के कोण पर लाएँ और इस स्थिति में थोड़ी देर रुकें। **यह योग उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जिन्हें हाई ब्लडप्रेशर या हर्ट से संबंधित, स्पॉन्डाइटिस और स्लिप-डिस्क की शिकायत है।**

मत्स्यासन व हलासन मत्स्यासन में पीठ के बल सीधा जमीन पर लेट जाएँ फिर अपने पैरों को आपस में जोड़ लें। अब दोनों हाथों को गर्दन की पास रखें और हथेलियों का सहारा लेते हुए गर्दन को उठाने का प्रयास करें। अब दोनों हाथों को गाँव पर रखें। वापस आते समय दोनों हथेलियों के सहारे गर्दन को देखाएँ उसी स्थिति में आपस ले आएँ। हलासन में पीठ के बल लेट कर अपने पैरों को मिला लें। अब धीरे-धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएँ और पैरों को 30, 60 और 90 डिग्री के कोण पर लाकर रोकें। अब दोनों हाथों पर जोर देकर पैरों को सिर की ओर थोड़ा सा झुकाएँ। जब पैर जमीन को स्पर्श करने लगें, तो दोनों हथेलियों को काँस करके धीरे धीरे सिर पर रखें।

ब्रह्ममुद्रा व नाडीशोधन प्राणायाम ब्रह्ममुद्रा आसन के लिए वज्रासन में या अपनी कमर सीधी करके बैठें और गर्दन को 10-15 बार ऊपर-नीचे, और फिर दाएँ-बाएँ करें। और इतनी ही बार वलोक वाइन और एंटी वलोक वाइन घुमाएँ। नाडीशोधन प्राणायाम में कमर और गर्दन सीधी करके बैठें और फिर एक नाक से धीरे-धीरे लंबी और गहरी साँस लेकर दूसरे नाक से निकालें। यही क्रिया फिर दूसरी नाक से भी करें। इस क्रम से कम 10 बार दुहराएँ।

उष्णान व धनुरासन घुटनों पर खड़े हो जाएँ। फिर पीठ को पीछे की ओर झुकाते हुए दोनों हाथों से एंडियों को एकदूसरे गर्दन पीछे की ओर झुकाएँ और पैर को आगे की तरफ उठाएँ। यदि इस आसन में शरीर ऊँट की आकृति जैसा हो जाता है। इसलिए इसे उष्णान कहा जाता है। इसे स्थिति में 10-15 बार साँस धीरे-धीरे लें और छोड़ें। धनुरासन में पीठ के बल लेटकर दोनों टखनों को एकड़ लें। इस आसन में शरीर धनुर के सामान हो जाता है। फिर गर्दन, सिर, छाती और घुटनों को ऊपर उठाकर 10-15 बार धीरे-धीरे लंबी और गहरी साँस लें और छोड़ें। (यह सब आसन थायराइड को दूर करने के लिए है पर आप इस बात का ध्यान रखें कि इन आसनों को किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें।)

घरेलू नुस्खों से कैसे करें इम्पेटिगो का उपचार

इम्पेटिगो एक बेहद ही संक्रामक त्वचा संक्रमण है, जो आमतौर पर चेहरे, गर्दन, हाथ और पैर पर होता है। हल्के मामलों का इलाज साफ-सफाई का ध्यान रखकर या घरेलू उपचार के साथ किया जा सकता है। आइए इम्पेटिगो के घरेलू उपायों के बारे में जानकारी लेते हैं।

घरेलू उपायों से करें इम्पेटिगो का इलाज इम्पेटिगो बेहद ही संक्रामक त्वचा संक्रमण है, जो आमतौर पर चेहरे, गर्दन, हाथ और पैर पर होता है। आमतौर पर यह समस्या दो प्रकार के बैक्टीरिया यानी स्ट्रेप्टोकोकस फ्लोरेनेस और स्ट्रेफ्टोकोकस के कारण होती है। बैक्टीरिया त्वचा को कट के माध्यम से संक्रमित करती है, अन्यथा स्वस्थ त्वचा में खुजली या एक्जिमा जैसे अन्य अंतर्निहित समस्याएँ के कारण ऐसा होता है। हालांकि यह समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चों और शिशुओं में यह बहुत ही आम है। अन्य जोखिम कारकों में स्वच्छता को धी धी लेना, गर्म मौसम और अन्य प्रकार के त्वचा संक्रमण, सूजन, डायबिटीज, कमजोर इम्युनिटी शामिल है। इम्पेटिगो के लक्षण प्रकार पर निर्भर करते हैं। हालांकि आम लक्षणों में लाल चकत्ते, तरल पदार्थ से भरे छाले, खुजली, प्रभावित हिस्से पर खरोंच, त्वचा पर घाव और सूजन लिम्फ नोड्स शामिल है। इम्पेटिगो का इलाज हालत की गंभीरता पर निर्भर करता है।

सफेद सिरका का प्रयोग और ल त्वचा की चिकित्सा के लिए संक्रमित हिस्से को साफ रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसे साफ करने के लिए आप पानी या एंटीबायोटिक वॉश का उपयोग कर सकते हैं। आप सफेद सिरके के इस्तेमाल से खुद का एंटीबायोटिक मिश्रण तैयार कर सकते हैं। यह संक्रमण को फैलने से रोकने के साथ संक्रमित हिस्से को सूखने में मदद करता है। **टी ट्री तैल:** टी ट्री ऑयल इस बैक्टीरिया के संक्रमण को फैलने से रोकता है। यह तेल मजबूत एंटी-माइक्रोबील और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो संक्रमण से लड़ने और लक्षणों से राहत देने में मदद करता है। **इस्तेमाल का तरीका:** टी ट्री ऑयल ऑयल की कुछ बूंदों को एक चम्मच ऑयल ऑयल में मिला लें। इस मिश्रण को प्रभावित हिस्से पर अच्छी तरह से लगा लें। इसे 20 से 30 मिनट बाद गुनगुने पानी से साफ कर लें। कुछ दिनों तक इस उपाय को नियमित रूप से 2 से 3 बार करें। बैक्लिपक रूप से, गुनगुने पानी के एक छोटे से टब में टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें मिलायें। इस मिश्रण से प्रभावित हिस्से को दिन में कई बार धोने में प्रयोग करें। **अंगूर बीज का सत्व:** अंगूर बीज का सत्व इम्पेटिगो के इलाज में कारगर है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सिडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण एक गैर विषैले कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है। **इस्तेमाल का तरीका:** अंगूर के बीज के सत्व में कुछ बूंदें 2 बड़े चम्मच पानी में मिलाएं। फिर इसे कॉटन बॉल की मदद से संक्रमित त्वचा पर दिन में 2 या 3 बार लगाएं। हो सकता है कि शुरुआत में आपको खुजली हो लेकिन इससे संक्रमण जल्द ही ठीक हो जायेगा। **प्रभावी उपाय लहसुन:** लहसुन में मौजूद प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। साथ ही यह खुजली और दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। **इस्तेमाल का तरीका:** 2 चम्मच तिल के तेल में लहसुन की 2 से 3 कली कुचलकर जला लें। फिर इसे त्वचा को उंडा होने दें। कुछ दिनों के लिए इसे नियमित रूप से प्रभावित त्वचा पर दिन में दो बार लगाएं। आप चाहे तो इसमें कच्चे लहसुन की कुछ कली को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं।



टाईम पास

आज का राशिफल
मेष
चू बे चो ला ली
बुध
इ उ ए ओ वा
वी चू वे चो
मिथुन
का की कू व ड
छ के को हा
कर्क
ही हू हे हो डा
डी हू डे डो
सिंह
मा नी मू बे जो
दा टी हू दे
कुम्भ
गू वे गो सा
सी सू से सो वा
धनु
ये वे गो मा नी मू
घा फा डा मे
मकर
मे जा जी खी सू
खे खो गा नी
मीन
दी दू थ ज्ञ जे दे
घो वा ची

काकुरो पहेली - 3055
काकुरो - 3054 का हल
सूडोकू - 3055
सूडोकू - 3054 का हल

लॉफिंक्स जॉय
शादी के सोजन में जगह-जगह
शादी में आने-जाने के कारण रमन के पास कपड़ों की कमी-सी हो जाती है, फिर भी वो कुछ मैनेज करके अपने खास दोस्त की शादी में जाता है, वहाँ पर दोस्त के अंकल उससे पूछते हैं-बेटे! ये शर्ट तो बहुत अच्छी है!
रमन- जी, मेरी नहीं है।
अंकल- पैट भी बहुत अच्छी है।
रमन- ये भी मेरी नहीं है।
अंकल- तो फिर किसकी है?
रमन- लॉर्ड्री वाले की..!

फिल्म वर्ग पहेली- 3055
उपर से नीचे:-
बार्यें से दावें:-
बाएँ से दाएँ

शब्द पहेली - 3055
बारें से दाएँ
लड़ा था-3
25. अंगरक्षक-3,3
27. हाथी-4
28. मंद, सख्त-2
29. अनुसार, समान-4
31. निगाह, दृष्टि-4
32. हथियार-3
34. पानी, नीर-2
36. सिरपेट का धुआं
खींचना, सुड़ा-2

सूडोकू - 3055
सूडोकू - 3054 का हल

शब्द पहेली - 3055
बारें से दाएँ
लड़ा था-3
25. अंगरक्षक-3,3
27. हाथी-4
28. मंद, सख्त-2
29. अनुसार, समान-4
31. निगाह, दृष्टि-4
32. हथियार-3
34. पानी, नीर-2
36. सिरपेट का धुआं
खींचना, सुड़ा-2

शब्द पहेली - 3054 का हल

शब्द पहेली - 3054 का हल

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में सात विकेट से हराकर सीरीज में बराबरी की

– प्लेयर ऑफ मैच – सिराज

– प्लेयर ऑफ सीरीज – बुमराह, एलगर

केपटाउन (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम ने यहां दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। सीरीज का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। भारतीय टीम ने जीत के लिए मिले 79 रनों के लक्ष्य को तीन विकेट पर ही हासिल कर लिया। इस मैच में गेंदबाज हावी रहे। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की टीम को 55 रन पर ही समेटने के बाद भारतीय टीम भी 153 रन पर आउट हो गई थी। इस प्रकार भारतीय टीम को पहली पारी में 98 रनों की बढ़त मिली थी। दूसरी पारी में एडम मार्करम के शतक से दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 176 रन बनाये। मार्करम ने शानदार बल्लेबाजी कर 103 रन बनाये पर वह अपनी टीम को हार नहीं टाल पाये। इस प्रकार भारतीय टीम को जीत के लिए 79 रन का लक्ष्य मिला। भारतीय टीम ने इस छठे टेस्ट को दूसरे दिन 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। इस प्रकार 30 साल में भारतीय टीम ने



पहली बार केपटाउन के मैदान पर कोई टेस्ट जीता है। भारत ने जीत के साथ इस सीरीज को 1-1 से बराबरी पर समाप्त किया। इस मैच में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की। भारत ने केवल 2 दिन के अंदर मेजबान

टीम को हराकर अपनी क्षमता दिखायी। इस मैच में टॉस जीतकर डीन एलगर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सिराज ने मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की। भारत ने केवल 2 दिन के अंदर मेजबान

बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा था। पूरी टीम मिलकर 153 रन ही बना सकी थी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली के अलावा कोई बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाया। दूसरी इनिंग में मेजबान बुमराह की घातक

गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाये। बुमराह ने छह विकेट लेकर टीम के बड़े स्कोर की उम्मीद समाप्त कर दी। एक छोर पर अनुभवी मार्करम छटे रहे और शानदार शतकीय पारी खेली। इसके बाद भी मेजबान टीम भारत के सामने महज 79 रन का लक्ष्य ही रखने में कामयाब हो पाया। उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल पाया।

30 साल में पहली बार इस मैदान पर जीता टेस्ट

भारतीय टीम ने 30 साल में केपटाउन में पहला टेस्ट जीता है। इससे पहले केपटाउन में कुल 6 मुकाबले हुए थे। जिसमें भारत ने 4 गंवाए थे और 2 ड्रं हुए थे। केपटाउन में भारत ने पहला टेस्ट 1993 में खेला था। चार मैचों की टेस्ट सीरीज में चौथा टेस्ट ड्रं रहा था। इसके बाद 2011 में भी केपटाउन में हुआ तीसरा टेस्ट ड्रं हुआ था। इस मैदान पर भारतीय टीम ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट में हराया है।

इस मैच में जीत के लिए भारतीय टीम को पांच सत्र और 642 गेंदें ही खेलनी पड़ीं। इस प्रकार यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में खेला गया सबसे छोटा मैच रहा। इससे पहले, 1932 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए टेस्ट में केवल 656 गेंदें फेंकी गई थीं।

दीपा ने जिम्नारिस्टिक नेशनल

चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया



– महिला वर्ग में रेलवे की टीम जीती

भुवनेश्वर (एजेंसी)। दीपा कर्माकर ने शानदार वापसी करते हुए सीनियर आर्टिस्टिक जिम्नारिस्टिक नेशनल चैंपियनशिप में नंबर एक स्थान हासिल किया है। ऑलंपियन दीपा ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए कुल 49.55 अंकों के साथ ही शीर्ष पर रही। इस चैंपियनशिप में दीपा त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। उन्होंने वॉल्ट पर 13.40, अनडव्न बार्स पर 10.65, ब्रैन्स बीम पर 13.10 और फ्लोर एक्सरसाइज पर 12.40 रिकॉर्ड अंक हासिल किये। रेलवे की प्रणति दास 47.00 और स्वास्तिका गांगुली 45.30 अंक लेकर ऑल-अराउंड में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। ऑल-

अराउंड श्रेणी में शीर्ष पर रही दीपा ने कहा, मैं आठ साल बाद सीनियर नेशनल में उतर रही हूँ, मुझे इससे बहुत अच्छा लगा रहा है, और मैं अपने इस प्रदर्शन से वास्तव में खुश हूँ। मैं आगे भी अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करूँगी। उन्होंने कहा, यहाँ जिम्नारिस्टिक सेंटर देखकर काफी अच्छा है और मुझे धरोसा है कि यहाँ से बहुत सारे ऑलंपिक और एशियाई खेलों के जिम्नारिस्ट तैयार करेंगे। वहीं महिला टीम वर्ग में रेलवे की टीम ने 182.60 अंकों के साथ जीत दर्ज की। महाराष्ट्र की टीम 169.95 अंकों के साथ दूसरे जबकि पश्चिम बंगाल 166.80 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा मेजबान ओडिशा की टीम को 164.65 अंकों के साथ चौथा स्थान मिला।

ऑस्ट्रेलिया-पाक मैच में बारिश बनी बाधा

सिडनी (एजेंसी)। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के 34 रनों की सहायता से ऑस्ट्रेलिया ने यहां पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में अपनी पहली पारी में दो विकेट पर 116 रन बनाए। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय मार्नस लावुरेन 23 और

पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी भी उससे 197 रनों से पीछे है। दूसरे सत्र में खराब रोशनी के कारण भी खेल में बाधा आई।

वहीं अपना 112वां और विदायी टेस्ट मैच खेल रहे वार्नर आगा सलमान की गेंद पर बाबर आजम के हाथों कैच हुए। अब वार्नर के पास दूसरी पारी में भी अवसर है। वार्नर को इस मैच में एक जीवनदान मिला पर उसका वह लाभ नहीं उठा पाये। जब वह 20 रन पर खेल रहे थे तब स्लिप में सैम अयूब ने उनका कैच छोड़ा था। वार्नर ने सुबह 6 रन से से आगे खेलते हुए



स्टीव स्मिथ 6 रन पर खेल रहे थे। दूसरे दिन खराब रोशनी और बारिश के कारण मैच तय समय से पहले ही समाप्त हो गया और केवल 46 ओवर ही फेंके जा सके। पाक ने इस मैच में पहली पारी में 313 रन बनाए थे। इस प्रकार पहली

अच्छे शॉट लगाये थे और दर्शकों को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। इसके बाद दूसरे सत्र में सलामी बल्लेबाज उस्मान खाना ने 47 रन बनाकर पारी को आगे बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया ने लंच तक एक विकेट पर 78 रन बनाए थे।

टी20 विश्व कप 2024: भारत-पाकिस्तान मैच की तारीख आई सामने, पहला मुकाबला आयरलैंड से!

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत टी20 विश्व कप 2024 के दौरान 9 जून को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान से भिड़ेगा और अपने कट्टर प्रतिद्वंदी के खिलाफ मैच से चार दिन पहले अपने अभियान की शुरुआत में आयरलैंड से खेलेगा। सूत्रों के अनुसार, भारतीय टीम, जो अपने दूसरे टी20 विश्व कप खिताब की तलाश में है, क्वालिफाई होने पर अपने ग्रुप मैच यूएसए में और सुपर 8 मैच वेस्ट इंडीज में खेल सकती है। भारत अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए 5 जून को न्यूयॉर्क में आयरिश टीम से भिड़ेगा।



सामना करेगा। 15 जून को भारत बनाम कनाडा का मुकाबला हो सकता है। अगर भारत सुपर 8 चरण के लिए क्वालिफाई करता है, तो उनका पहला मैच 20 जून को बारबाडोस में होगा। उम्मीद है कि भारतीय टीम अपने सभी सुपर 8 मैच वेस्टइंडीज में खेलेगी। सूत्रों

के मुताबिक टूर्नामेंट का फाइनल 29 जून को उसी स्थान पर खेले जाने की उम्मीद है।

हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप के लिए टी20 की हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। रोहित

और कोहली दोनों ने नवंबर 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप सेमीफाइनल के बाद से भारत के लिए सबसे छोटे प्रारूप में नहीं खेला है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टी20 विश्व कप 2024 को ध्यान में रखते हुए आईपीएल के दौरान कुल 30 खिलाड़ियों पर नजर रखी जाएगी।

वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में लगभग 30 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखी जाएगी। अभी यह देखा होगा कि अगरकर और उनके साथी 11 जनवरी से मोहाली में होने वाली श्रृंखला के लिए रोहित और कोहली का चयन करते हैं या नहीं या फिर आईपीएल के दौरान ही उनकी फॉर्म और फिटनेस पर नजर रखी जाएगी।

विराट ने एलगर को दी यादगार विदायी



केपटाउन। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरे टेस्ट मैच में अपनी खेलभावना से प्रशंसकों का दिल जीत लिया। इस मैच में विराट ने अपना अंतिम टेस्ट खेल रहे दक्षिण अफ्रीका के डीन एलगर को झुककर एक यादगार विदायी दी। दूसरी पारी में जब मुकेश की गेंद पर एलगर का विकेट गिरा तो विराट ने जश्न नहीं मनाया और अन्य खिलाड़ियों को भी जश्न न मनाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने अन्य खिलाड़ियों से भी एलगर को विदाई देने को कहा। जिसके बाद टीम के अन्य खिलाड़ियों ने भी एलगर को झुककर बधाई दी। विराट इसके बाद एलगर से गले मिले। इसका एक वीडियो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर आ रहा है। वहीं अपने आखिरी टेस्ट में एलगर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाये। वह पहली पारी में 4 रन जबकि दूसरी पारी में केवल 12 ही बना पाये। एलगर ने हालांकि इस सीरीज के पहले टेस्ट में शतक लगाया था। इस मैच में नियमित कप्तान टैबू ब्रामा के घायल होने के कारण बाहर होने से टीम की कप्तान एलगर के पास थी।

एमबापे ने फिट गोल दागा, पेरिस सेंट जर्मेन ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती



जोकोविच कलाई की चोट से परेशान, सर्बिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल में



पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) (एजेंसी)। नोवाक जोकोविच का कलाई की चोट के कारण संघर्ष जारी है, जिसका फायदा उठाकर ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को यहां सर्बिया को 3-0 से हराकर यूनाइटेड कप टैनिंग टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच पोलैंड ने चीन को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया जबकि फ्रांस ने इटली और यूनाइटेड ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई।

जोकोविच चेक गणराज्य के खिलाफ पिछले मैच में भी कलाई की चोट से परेशान रहे थे लेकिन तब भी उन्होंने ज़िरी लेचका को हराया था। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी को हालांकि अलेक्स डिमित्री के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने यह मैच 6-4, 6-4 से जीता। इसके बाद अजला टोमलजानोविच ने नतालिया

स्त्वानोविच के खिलाफ 6-1, 6-1 से जीत दर्ज करके ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की अजेय बढ़त दिलाई। मैथ्यू एब्डेन और स्टर्न हंटर ने मिश्रित युगल में देजाना रेडानोविच और निकोला कैसिक को 6-3, 6-3 से हराया, जिससे ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगा।

इससे पहले पोलैंड और चीन के बीच खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा स्विगतक ने दुनिया की 14वें नंबर की खिलाड़ी झेंग किन्वेन को महिला एफएल में 6-2, 6-3 से हराया। वहीं ह्वर्ट हुरकाज ने झांग झिंजेन को पुरुष एफएल में 6-3, 6-4 से मात दी। मिश्रित युगल में कैटरिना फॉजिंग को 6-3, 5-7, 10-7 से हराया। पोलैंड की टीम अब सिडनी में सेमीफाइनल खेलेगी जहां उसका सामना फ्रांस और नॉर्वे के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

अगले हफ्ते निलंबन को चुनौती देगा डब्ल्यूएफआई, 16 जनवरी को कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) खेल मंत्रालय द्वारा लगाए निलंबन को अगले हफ्ते अदालत में चुनौती देगा और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए उसने 16 जनवरी को यहां कार्यकारी समिति की बैठक भी बुलाई है। सचकार ने राष्ट्रीय खेल संहिता और डब्ल्यूएफआई संविधान के उल्लंघन का हवाला देते हुए 24 दिसंबर को नवनिर्वाचित संस्था को महासंघ के चुनाव के तीन दिन बाद निलंबित कर दिया था। डब्ल्यूएफआई कह चुका है कि वह न तो निलंबन को स्वीकार करता है और न ही कुश्ती का कामकाज देखने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा गठित तदर्थ पैनल को मान्यता देता है। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, 'हमें सुचारु रूप से काम करने वाले महासंघ की जरूरत है। हम इस

मामले को अगले हफ्ते अदालत में ले जा रहे हैं। हमें यह निलंबन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमारा चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुआ था। हमने 16 जनवरी को कार्यकारी समिति की बैठक भी बुलाई है।' वाराणसी के संजय सिंह ने बताया कि तदर्थ पैनल मुश्किल की घड़ी में काम करने के लिए किस तरह ठीक नहीं था। उन्होंने कहा, 'आपने देखा होगा कि जगरेब ओपन के लिए किस तरह टीम की घोषणा की गई थी। पांच वजन वर्गों में प्रतिनिधित्व ही नहीं था। उचित महासंघ के बिना ऐसा ही होगा। अगर कुछ पहलवान अपने संबंधित वर्ग में उपलब्ध नहीं थे तो उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को क्यों नहीं लिया गया?' संजय सिंह ने कहा, 'जब महासंघ काम कर रहा था तो कभी भी किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा

कोई भी वजन वर्ग नहीं रहा जिसमें भारत ने प्रतिनिधित्व नहीं किया हो। और एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाली उसी टीम को चुनने के पीछे का औचित्य क्या था। अन्य दोषदाह भी शामिल थे 1% उन्होंने कहा, 'मुझे उन पहलवानों के फोन आ रहे हैं जिन्हें लगा था कि वे भारतीय टीम में जगह बनाने के काबिल थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ट्यूल्स के जरिये साबित करने का मौका दिया जाता तो वे टीम में जगह बना सकते थे। इसलिए आपको एक सुचारु रूप से काम करने वाले महासंघ की जरूरत है।' इस बीच डब्ल्यूएफआई के एक सूत्र ने खुलासा किया कि कार्यकारी समिति के लिए तोटिस 31 दिसंबर को जारी किया गया था। इसमें जारी किये किये एजेंड का एक बिंदु संविधान के कुछ प्रावधानों को परिभाषित और इनकी व्याख्या करना है। सर्कुलर में स्पष्ट रूप से

संविधान का हवाला देते हुए ज़रूर किया गया है कि 'अध्यक्ष ही डब्ल्यूएफआई का मुख्य अधिकारी होगा। अगर उसे उचित लगाता है तो उसके पास परिषद और कार्यकारी बैठक बुलाने का अधिकार होगा।' खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई की 21 दिसंबर को आम परिषद की बैठक में महासंघ की अनुपस्थिति पर आपत्ति व्यक्त की थी। डब्ल्यूएफआई ने कहा कि उसने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और संविधान के अनुसार अध्यक्ष के पास फैसले लेने का अधिकार है और महासंघ उसके इन फैसलों को लागू करने के लिए बाध्य होगा। एक सूत्र ने कहा, 'हम तदर्थ पैनल के गठन और विभिन्न आयु ग्रुप में राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी के बारे में भी चर्चा करेंगे।' दिलचस्प बात यह है कि तदर्थ पैनल पहले



ही घोषणा कर चुका है कि वह तीन फरवरी से जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप और अगले छह हफ्तों के अंदर खलियार में आयु ग्रुप की चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। देखा होगा कि पहलवान डब्ल्यूएफआई या तदर्थ समिति द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में से किसमें हिस्सा लेते हैं।

एफसी एशियन कप 12 जनवरी से, भारतीय टीम का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा

नई दिल्ली। स्टार खिलाड़ी सुनील छेत्री की कप्तानी में भारतीय टीम इसी माह होने वाले एफसी एशियन कप में उतरेगी। एफसी एशियन कप कतर में 12 जनवरी से 10 फरवरी तक होगा। इस टूर्नामेंट के लिए 26 सदस्यीय दल में गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संघु और डिफेंडर संदेश झिंगन भी शामिल किये गये हैं। इसमें भारतीय टीम को ग्रुप बी में रखा गया है। भारत का पहला मैच 13 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय फुटबॉल टीम पांचवी बार इस टूर्नामेंट में खेलेगी। इससे पहले टीम 1964, 1984, 2011 और 2019 में इसमें भाग लिया था। साल 1964 में ही भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी। अन्य तीन सत्र में उसे ग्रुप स्तर की ही हार का सामना करना पड़ा था। एशियन कप में भारत को अपने ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया के अलावा उज्बेकिस्तान और सीरिया से खेलेना होगा। भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 जनवरी, दूसरा मुकाबला उज्बेकिस्तान के खिलाफ 18 जनवरी और सीरिया के खिलाफ तीसरा मुकाबला 23 जनवरी को होगा।

पूर्व फॉर्मूला वन रेसर विल्सन फिटिपाल्डी को जन्मदिन पर पड़ा दिल का दौरा

ब्रासीलिया। ब्राजील के पूर्व फॉर्मूला वन ड्राइवर और फॉर्मूला वन टीम के मालिक विल्सन फिटिपाल्डी जूनियर को क्रिसमस के दिन उनके 80वें जन्मदिन की डिनर पार्टी के दौरान दिल का दौरा पड़ा। ब्राजील के खेल समाचार आउटलेट ग्रांडे प्रेमियो ने बुधवार को यह जानकारी दी। ब्राजील के दो बार के फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन इमर्सन फिटिपाल्डी के भाई विल्सन ने क्रिसमस दिवस पर अपना 80वां जन्मदिन मनाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रात के खाने के दौरान, मांस के एक टुकड़े से उनका दम घुट गया और लंबे समय तक उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें 'काडियक अरेस्ट' हुआ। पूर्व ड्राइवर को साओ पाओलो अस्पताल में कृत्रिम सांस दी गई और बाद में थासनली इंल्यूबेशन की आवश्यकता पड़ी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब उनकी हालत स्थिर है, लेकिन डॉक्टर उन्हें बेहोशी से नहीं हटा पा रहे हैं। विल्सन फिटिपाल्डी जूनियर ने 1972-1973 और 1975 तक 38वीं विश्व चैंपियनशिप फॉर्मूला वन ग्रैंड प्री में भाग लिया और कुल तीन चैंपियनशिप अंक हासिल किए।

वंदना कटारिया चोटिल होने के कारण ओलंपिक क्वालीफायर से बाहर

रांची - भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी फारवर्ड वंदना कटारिया चोटिल होने के कारण ओलंपिक क्वालीफायर से बाहर हो गई हैं जो 13 से 19 जनवरी के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट से पहले भारत के लिए करारा झटका है। वंदना की टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया था लेकिन अभ्यास के दौरान उनके गाल की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। उनकी जगह युवा बलजीत कौर को टीम में लिया गया है।



भारत में पिछले 24 घंटे में आए 760 नए मामलों की वृद्धि

नई दिल्ली । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में एक दिन में कोविड के 760 नए मामलों की वृद्धि देखी गई, जबकि दो और लोगों की वायरल बीमारी से मौत हो गई। इसमें कहा गया है कि संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 4,423 दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, 24 घंटे की अवधि में केरल और कर्नाटक से एक-एक मौत की नई घटनाएं सामने आईं। 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंके में आ गई थी, लेकिन एक नए वेरिएंट के सामने आने और ठंड के मौसम की स्थिति के बाद मामले फिर से बढ़ गए हैं। महामारी के चरम पर दैनिक संख्या लाखों में थी, जो 2020 की शुरुआत में शुरू हुई और तब से पूरे देश में लगभग चार वर्षों में 4.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए और 5.3 लाख से अधिक मौतें हुईं। इस बीच, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि देश में अब तक जेएन.1 संक्रमण के कुल 5.11 मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक मामले कर्नाटक में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कर्नाटक से 199, केरल से 148, गोवा से 47, गुजरात से 36, महाराष्ट्र से 32, तमिलनाडु से 26, दिल्ली से 15, राजस्थान से चार, तेलंगाना से दो और ओडिशा तथा हरियाणा से एक-एक मामला सामने आया है। विश्व निकाय ने कहा कि जेएन.1 को पहले बीए.2.86 उप-वंश के हिस्से के रूप में रुचि के एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया था, मूल वंश जिसे वीओआईई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र ने देश में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि और जेएन.1 उप-संस्करण का पता चलने के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है।

नीट के भविष्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

नई दिल्ली। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा होता है। अब नीट को खत्म करने की मांग हो रही थी। इस लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम प्रंट्स टेस्ट (नीट) को खत्म करने की मांग को लेकर डीएमके के हस्ताक्षर अभियान के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य को वहां के स्कूलों में ऐसी गतिविधि की अनुमति न देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अखिल भारतीय आधार पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। जब याचिकाकर्ता ने पीठ से कहा कि बच्चे परेशान हैं, हालांकि उन्हें अंततः परीक्षा का सामना करना पड़ता है, इस पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा, सौभाग्य से, अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छी पीढ़ी है। हमारे बच्चे इतने मासूम नहीं हैं और वह सब कुछ समझते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, वे हमारी पीढ़ी से बहुत आगे हैं वे सब कुछ समझते हैं, मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, यह कैसे होता है। हालांकि, पीठ ने याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। पिछले साल अक्टूबर में तमिलनाडु में सतारूड डीएमके ने नीट को खत्म करने की मांग करते हुए 50 दिनों में 50 लाख हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया था।

आचार्य ने एनसीपी नेता को दी जान से मारने की चेतावनी

अयोध्या। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जीतेंद्र आह्लाड के बयान पर अयोध्या के परमहर आचार्य ने एक बड़ा बयान दिया। परमहर आचार्य का कहना है, आह्लाड द्वारा दिया गया बयान अपमानजनक है, भगवान राम भक्तों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं... मैं महाराष्ट्र और मॉदी सरकार से आग्रह करूंगा कि वे इस पर कार्रवाई करें। भगवान राम के बारे में गलत बोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें... अगर उनसे खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तब मैं आह्लाड को मार डालूंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूँ। बता दें कि इसके पहले एनसीपी नेता आह्लाड ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। आह्लाड ने विवादित बयान देकर कहा कि राम हमारे हैं और वह बहुत हैं। राम शाकाहारी नहीं, मांसाहारी हैं। वे शिकार करके खाते थे। अब उनके बयान को लेकर बीजेपी और अजित गुट के नेताओं में नाजलग्नी है। अजित गुट की एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में आह्लाड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

176 बलात्कार के मामलों में 115 प्यार और शादी का वादा करके किए गए

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 2023 में 176 बलात्कार के मामले सामने आए। पुलिस के अनुसार, हैरानी की बात यह है कि केवल तीन मामलों में अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं। पुलिस आंकड़ों के अनुसार, 176 बलात्कार के मामलों में से 115 मामले प्यार और शादी का वादा करके किए गए थे। 14 बलात्कार रिश्तेदारों द्वारा और 44 पड़ोसी और अन्य परिचित व्यक्तियों द्वारा किए गए। पुलिस ने बलात्कार के सभी 176 मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु में भी 2023 में 1,135 छेड़छाड़ के मामले दर्ज हुए, जबकि 2022 में 731 और 2021 में 573 मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने पिछले साल 1,004 छेड़छाड़ के मामलों का पता लगाया। बेंगलुरु पुलिस ने महिलाओं की गरिमा का अपमान करने के 60 मामले दर्ज किए, 52 का पता चला, अनैतिक तस्करों अधिनियम के तहत 161 मामले दर्ज किए गए और सभी का निपटारा कर दिया गया। शहर में 25 देहज हत्याएं दर्ज की गईं, बेंगलुरु में पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा चूरता के 696 मामले और देहज निषेध अधिनियम के तहत 1,007 मामले दर्ज किए गए। 12023 में बेंगलुरु में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,260 मामले दर्ज किए गए। 2022 में यह संख्या 2,630, 2021 में 2,020 थी। 12023 में बेंगलुरु से 3,323 महिलाएं और 203 लड़कियां लापता हो गईं। 441 महिलाएं और 22 लड़कियां लापता हैं और पुलिस ने बाकी को ढूँढ लिया है।

कश्मीर बॉर्डर के गांवों में आजादी के बाद पहली बार पहुंची बिजली

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर बॉर्डर के गांवों में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। अंधेरा दूर होने से यहां के लोग बेहद खुश हैं और मॉदी सरकार का गुणगान कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कश्मीर में केरन सेक्टर पर नियंत्रण रेखा के पास स्थित दो गांवों में आजादी के 75 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची है। कुणवाड़ा जिले के केरन इलाके में कुड़ियां और पतरु गांवों के निवासियों ने 75 वर्षों में पहली बार बिजली अपनी आंखों से देखी तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही लोगों के घर बिजली पहुंची, माहौल खुशी और उल्लास से भर गया, जो दशकों के लंबे इंतजार के अंत का प्रतीक था। बता दें कि पहले इन गांवों को डीजी सेट से बिजली मिलती थी जो सिर्फ तीन घंटे के लिए होती थी। अब इस क्षेत्र को बिजली ग्रिड से जोड़ने के बाद उन्हें पूरे समय बिजली मिलेगी। बिजली मिलने पर यहां के लोगों ने मोदी सरकार को इसका श्रेय दिया है। कश्मीर के मंडलायुक्त वी.के. भिदुरी ने समृद्ध सीमा योजना के तहत स्थापित 250 केवी के दो उप बिजली घरों का उद्घाटन किया। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने मोदी सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (केपीडीसीएल) इलेक्ट्रिक डिवीजन, कुणवाड़ा द्वारा विद्युतीकरण परियोजना को रिकॉर्ड दो महीने में पूरा किया गया है। अब यहां सुचारु रूप से बिजली मिलेगी।

दुनिया की सबसे खराब डिश में शामिल एक भारतीय सब्जी भी

नई दिल्ली। अपने देश में फल-सब्जियों की कोई कमी नहीं है। हमारे घरों में रोजाना अलग-अलग सब्जियां बनती ही हैं। इसमें कुछ ऐसी होती हैं, जो हर किसी को पसंद होती हैं, तब कुछ ऐसी होती हैं, जिन्हें देखकर कोई भी नाद-सिकाड़ लेता है। ऐसी ही सब्जियों में एक है बैंगन, जिसके कितने भी गुण समझा दो, कोई जल्दी खानी चाहता है। हमारे देश में ये सब्जी घर-घर में कभी न कभी जरूर बनती है। कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं होती है, तब कुछ घटखारें लेकर खाते हैं। इस दुनिया की कुछ सबसे खराब डिशज में शुमार किया गया है। ये खरब जानकर उन लोगों को जरूर बुरा लगेगा, जो बैंगन के भर्त और आलू-बैंगन की सब्जी पर जान छिड़कते हैं। एटलस ने दुनिया के कुछ सबसे खराब पकवानों की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में सिर्फ एक ही भारतीय डिश शामिल है, वह आलू-बैंगन की सब्जी है। इस सब्जी को 2.7 स्टार मिले हैं और इस खराब पकवानों की लिस्ट में 60वें नंबर पर रखी गया है। वैसे अपने देश में लोग आलू, बैंगन, प्याज, टमाटर और कुछ मसालों के साथ सूखी और ग्रेवी वाली सब्जी बनाई जाती है। बहुत से लोग पसंद भी करती हैं लेकिन ग्लोबली इसे पसंद नहीं किया जाता है। हालांकि बहुत सी इंडियन डिशेंज दुनिया भर में खूब पसंद की जाती हैं, लेकिन आलू-बैंगन किसी को नहीं भाता।



समलैंगिक जोड़े को मेरिज सर्टिफिकेट नहीं दिया,अब भरना होंगे दो करोड़ से ज्यादा

लेक्सिंगटन। अमेरिका के केंटूकी में समलैंगिक जोड़ों को विवाह लाइसेंस जारी करने से इनकार करना एक पूर्व काउंटी क्लर्क को इतना भारी पड़ेगा, उसने कभी सपनों में भी सोचा न होगा। अब इस क्लर्क को एक जोड़े का प्रतिनिधित्व करने वाले क्वीलों को फीस और खर्च के रूप में कुल २ लाख ६० हजार १०४ का भुगतान करना होगा।एक संघीय न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। भारतीय मुद्रा में यह कीमत २ करोड़ १६ लाख ५९ हजार ८३५ रुपये होती है। यह हर्जाने में एक लाख के अतिरिक्त है।जुरी ने कहा कि रोवन काउंटी के पूर्व क्लर्क किम डेविस को मुकदमा करने वाले जोड़े को भुगतान करना चाहिए। लेक्सिंगटन हेराल्ड-लीडर की रिपोर्ट के अनुसार, क्लर्क डेविस के क्वीलों ने तर्क दिया कि क्वीलों द्वारा मांगी गई फीस और लागत अत्यधिक थी, लेकिन अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेविड एल बनिंग ने इस पर असहमति जताई और कहा कि डेविस को भुगतान करना होगा, क्योंकि वे लोग अपने मुकदमे में विजयी रहे। डेविस ने तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, जब २०१५ में उनके इनकार के कारण उन्हें कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया था, जो उनके इस विश्वास पर आधारित था कि शादी केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच होनी चाहिए। डेविस को उसके कर्मचारियों द्वारा उसकी ओर से लाइसेंस जारी करने के बाद ही रिहा किया गया, लेकिन फॉर्म से उसका नाम हटा दिया गया। केंटूकी की राज्य विधायिका ने बाद में राज्य विवाह लाइसेंस से सभी काउंटी क्लर्कों के नाम हटाने वाला एक कानून बनाया।

सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत में ही महिला जज को पीटा

लास वेगास। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने महिला जज को पीट दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जज ने आरोपी डियोब्रा को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था। इस बात से आरोपी डियोब्रा इतना नाराज हो गया कि उसने एकदम से जेम के ऊपर से छलांग लगाते हुए महिला जज पर हमला बोल दिया। अमेरिका के लास वेगास में अदालत की सुनवाई के दौरान यह घटना हुई है। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अदालत में मौजूद सुरक्षार्कमी और अन्य लोग महिला जज को बचा नहीं पाए। किसी तरह सुरक्षार्कर्मियों ने आरोपी को काबू में किया और फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। यह पूरी घटना कोर्ट में लगे कैमरे में रिकार्ड हो गई। बुधवार को लास वेगास के निवासी आरोपी डियोब्रा डेलोन रेड्ने (३० वर्षीय) को एक मामले में सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। क्लार्क काउंटी डिस्ट्रिक्ट जज मेरी के मामले की सुनवाई कर रही थी। जज ने आरोपी डियोब्रा को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। इस बात से आरोपी डियोब्रा इतना नाराज हो गया कि उसने महिला जज पर हमला बोल दिया। घटना के वक्त आरोपी हिरासत में नहीं था। वीडियो में दिखा रहा है कि आरोपी ने महिला जज की कुर्सी पर छलांग लगाई और महिला जज को जमीन पर गिराकर लात-घुसों से पीटना शुरू कर दिया। इस पर तुरंत कोर्ट के मार्शल और अन्य पुलिसकर्मियों ने महिला जज को बचाने की कोशिश की लेकिन आरोपी इतना उग्र था कि उसके फिर भी महिला जज को पीटना जारी रखा। कुछ देर हाथपाइ के बाद आरोपी को काबू में किया गया। इस हमले में महिला जज को गंभीर चोट लगी है। वहीं जज को बचाने वाले मार्शल का सिर फट गया और उसका कंधा भी टूट गया। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।

क्रिसमस की सफाई में महिला को मिला खजाना

न्यूयॉर्क। नया साल आने से पहले जर्मनी के मैडडबुर्ग में रहने वाली महिला की क्रिस्मस तक कुछ ऐसी खुली कि उसे अचानक ही घर में खजाना मिल गया। वैसे तो वो क्रिसमस की सफाई कर रही थी लेकिन झटके से वो अमीर बन गई। महिला रिश्तारों की साफ-सफाई में जुटी हुई थी इसी बीच उसे अपन घर की एक छोटी डेस्क से पुराना लॉटरी का टिकट मिल गया। ये टिकट करीब दो साल पुराना था और इवरे फरवरी, २०२१ को खरीदा गया था। महिला को खुद भी इसके बारे में बिस्कुल याद नहीं था। लॉटरी के अधिकारियों ने बताया कि टिकट बहुत अच्छी स्थिति में था। दिलचस्प बात ये थी कि ९१,६४,५२९ रुपये के इस प्राइज को ३१ दिसंबर, २०२४ तक क्लेम किया जा सकता है। उनके मुताबिक ये पहले इतना बड़ा अपग्रेड है, जिसे किसी ने इतने दिनों के बाद क्लेम किया है। महिला ने पैसे मिलने के बाद सबसे पहले छुट्टी पर जाने का प्लान बनाया है। इससे पहले अमेरिका में भी साट्टीनेस हीरिंडिंग नाम के शख्स ने अपने करोड़ों के प्राइज को १० मिलियन डॉलर के अपने प्राइज को एक साल बाद क्लेम किया था।

पांच लाख से अधिक अवैध प्रवासियों को भेजा देश के बाहर

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने संसद के उच्च सदन को बताया कि पाकिस्तान सरकार के निर्वासन अभियान के तहत पांच लाख से अधिक अवैध प्रवासियों को देश से वापस भेजा जा चुका है। मंत्रालय ने सांसद मोहसिन अजीज के स्वदेश वापसी व निर्वासन अभियान की वर्तमान स्थिति पर किए गए सवाल में यह जानकारी दी। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने संसद को बताया कि सरकार के निर्वासन अभियान के तहत पांच लाख से अधिक अवैध प्रवासियों को देश से वापस भेजा जा चुका है। मंत्रालय ने सांसद अजीज के स्वदेश वापसी व निर्वासन अभियान की वर्तमान स्थिति पर किए सवाल में यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि तकरौबन १७ लाख प्रवासी गैरकानूनी तरीके से देश में रह रहे हैं और इनमें से अधिकांश अफगानी हैं। तकरौबन ५.४१ लाख लोगों को वापस भेजा जा चुका है।

नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस को शेख हसीना सरकार ने भेजा जेल

ढाका। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार ने नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस को जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आम चुनाव से कुछ दिन पहले ग्रामीण बैंक के संस्थापक मुहम्मद यूनुस को श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया। सरकार ने उन्हें ६ महीने की सजा सुनाई गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के आलोचकों का आरोप है कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यक्ति के प्रति सरकारी प्रतिशोध का मामला है। हालाँकि, अन्य लोग इसे श्रमिकों द्वारा दायर कानूनी मामले के रूप में देखते हैं। श्रम कानून के उल्लंघन के एक साधारण मामले को राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है। दरअसल मुहम्मद यूनुस और पीपुल्स शेख हसीना की अगामी लोग के बीच मनमुटाव चल रहा है। बता दें कि भले ही ग्रामीण टेलीकॉम के यूनुस और उनके तीन सहयोगियों को ६ महीने की जेल की सजा दी गई, लेकिन श्रम अदालत ने उन्हें एक महीने के लिए जमानत भी दे दी, जिससे उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने का समय मिल गया। उन पर कंपनी में श्रमिक कल्याण कोष बनाने में विफल रहने के लिए श्रम कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। जाहिर है ग्रामीण टेलीकॉम यूनुस द्वारा स्थापित कई कंपनियों में से एक है। फिलहाल देश में जहां सरकार को विपक्षी आवाजों को दबाने की कोशिश के संदेश के साथ देखा जाता है। वहीं ८३ वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता के खिलाफ फैसले को खतमता के क्षरण और सरकारी आलोचकों को चुप कराने की कोशिश के एक और उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है। बता दें कि बांग्लादेश में ७ जनवरी को चुनाव होने जा रहा है, जिसका उसकी मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने बहिस्कार किया है।

भूकंप के बाद जीवित लोगों की तलाश जारी, मरने वालों की संख्या ७३ पहुंची

टोक्यो। जापान में आए भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या ७३ हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार नए साल के दिन आए सिलसिलेवार शक्तिशाली भूकंपों से जानमाल का काफी नुकसान हुआ, जबकि ढही इमारतों के नीचे बचे लोगों की तलाश आज चौथे दिन भी जारी रही। ७.५ की तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप ने इश्कावा के केंद्रीय प्रान्त में नोटो प्रायद्वीप को झटका दिया, जिससे इमारतें ढह गईं और सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। बताया जा रहा है कि यह सभी मौतें इश्कावा प्रान्त में हुईं हैं जहाँ नोटो प्रायद्वीप सबसे अधिक प्रभावित है। स्थानीय सरकार के के सूत्रों ने बताया कि भूकंप के बाद से ही ३३,००० से अधिक लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं और लगभग १,००,००० घरों में पानी की आपूर्ति नहीं है। १३०० से अधिक लोग घायल हुए हैं और उनमें से कम से कम २५ की हालत गंभीर है। हजारों बचावकर्मियों ने टंड और भारी बारिश के बीच मलबे में फंसे कई और लोगों को निकालने के लिए कड़ी मेहनत की। मौसम विशेषज्ञों ने इश्कावा में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जिससे भूस्खलन और आधे-अधूरे घरों को अधिक नुकसान होने की चिंता है।



उत्तरी फ्रांस में आई बाढ़ के बाद सिविल सिक्चूरीटी बचाव दल लोगों को पानी के बीच से निकालते हुए।

अमेरिका ने हृतियों को लाल सागर में जहाजों पर हमले बंद करने या फिर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका और १२ सहयोगी देशों ने हूती विद्रोहियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे लाल सागर में जहाजों पर हमले बंद करें अन्यथा संभावित सैन्य कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।

गाजा में १९ दिसंबर से इजराइल-हमास युद्ध के जवाब में यमन के आतंकवादियों ने कम से कम २३ हमले किए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमले को लेकर पर संभावित भागीदारी के नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ईरान समर्थित हृतियों को अमेरिका और उसके सहयोगियों से ‘‘एक और चेतावनी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए’’।

सहयोगी देशों की ओर से बुधवार को हमलों की निंदा करते हुए जारी किये गये एक संयुक्त बयान के तुरंत बाद व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर इस बारे में जानकारी दी। बयान पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बर्हरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए।

इसके अलावा अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हृतियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया और उनके वित्तपोषक ईरान को चेतावनी दी कि उसके पास वित्तीय मौजूद है कि वह विद्रोहियों को समर्थन जारी रखे या नहीं।

देशों ने कहा, ‘‘अब हमारा संदेश स्पष्ट होना चाहिए। हम इन हमलों को तत्काल समाप्त करने और गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिए गए जहाजों और चालक दल को रिहा करने का आह्वान करते हैं।’’

रोते हुए गुलाम हैदर ने कहा, सीमा बहुत बुरी पत्नी और मां साबित हुई

–**मेरे बच्चों का उत्पीड़न हो रहा**

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान से गैरकानूनी तरीके नेपाल के सबसे भारत आई सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने बच्चों की पाक वापसी की मांग की है। गुलाम ने कहा कि उसके बच्चों का पबित्रा अधर में लटक गया है। उन्हें इस तरह से दूसरे देश और संस्कृति में ले जाना बच्चों के लिए मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। वहीं बच्चों के सचिन के साथ चुपत्ते मिलने और खुद को गैर जिम्मेदार पिता कहने की बात पर गुलाम ने कहा कि वह एक अच्छा पिता है। उसके बच्चों और बीबी को बहकनाया गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान के ट्यूटूबर ने आरोप लगाया है कि सीमा के बच्चों के साथ उत्पीड़न हो रहा है।

हैदर ने रोते हुए कहा, मुझे बच्चों को छोड़कर जाने वाला कहा जा रहा है। मैं कहीं घूमने-फिरने नहीं गया था, मैं अपने बच्चों की परवरिश के लिए कमाने गया था। आज मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया गया है। छह महीने से मैंने बच्चों को देखा नहीं है, इससे मेरे दिल पर जो खूब रही है, वहां मेरा खुद जानता है। गुलाम सीमा हैदर को कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने मेरे बच्चों को मुझसे दूर किया है।

टंड के मामले में स्वीडन ने तोड़े पिछले कई रिकॉर्ड - ४३.६ डिग्री सेल्सियस हुआ तापमान

स्टॉकहोम (एजेंसी)। टंडके मामले में करीब द्वाइ दशक पुराना रिकॉर्ड स्वीडन ने तोड़ है। यहां जनवरी १९९९ में स्वीडन में शून्य से ४९ डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया था। जिससे १९५१ में बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। लिंड ने कहा कि बुधवार को माप स्वीडन के सुदूर उत्तर में क्रिक्जोके-अरेन्जार का स्टेशन पर की गई थी। उन्होंने कहा कि साइट १८८८ में माप शुरू होने के बाद से इस जगह पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है।

स्वीडन में बुधवार को २५ वर्षों में जनवरी की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। देश के सुदूर उत्तर क्षेत्र में तापमान शून्य से ४३.६



अमेरिका ने हृतियों को लाल सागर में जहाजों पर हमले बंद करने या फिर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी



उन्होंने कहा, ‘‘अगर हूती जीवन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्र के महत्वपूर्ण जलमार्गों में वाणिज्य के मुक्त प्रवाह को खतरों में डालना जारी रखते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे।’’ हाल के हफ्तों में हृतियों ने लाल सागर में उन जहाजों पर हमलों का दावा किया है जिनके बारे में उनका कहना है कि वे या तो इजराइल से जुड़े हैं या इजराइली बंदरगाहों की ओर जा रहे थे।

हृतियों का कहना है कि उनके हमलों का उद्देश्य गाजा पट्टी में इजराइली हवाई और जमीनी हमले को खत्म करना है, जो दक्षिणी इजराइल में सात अक्टूबर को फलस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था।



हृतियों के हमलों में अहम बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया गया है। बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य एशिया और यूरोप को जोड़ता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जहाज यातायात की सुरक्षा के लिए ‘ऑपरेशन प्रॉस्पे्रिटी गार्जियन’ का गठन किया है और वर्तमान में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के युद्धपोत इस क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। रिववार को लाल सागर में एक मालवाहक जहाज पर हमले की घटना के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने हूती विद्रोहियों पर गोलीबारी की, जिसमें उनमें से कई मारे गए।

अमेरिका का दावा–हमास ने इजरायली बंधकों को अस्पताल में छुपाया था

तेल अवीव। अमेरिका ने दावा किया है कि इजरायली बंधकों को गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के तखाने में छिपाया गया था। ये काम आतंकी संगठन हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहादियों ने किया था। इसके एक नहीं कई संकेत मिल है और ऐसे ही स्थानों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद, कई प्रकार के दस्तावेज, लैपटॉप आधुनिक तकनीक वाली सामग्री आदि जब्त की गई है। अमेरिकी खुफिया आकलन में अल शिफा अस्पताल परिसर के बारे में इजरायली दावों का समर्थन किया गया है, जिसमें उनका मानना है कि आतंकी समूहों ने अल शिफा अस्पताल और उसके नीचे की साइटों का उपयोग बंधकों को छिपाने में किया था। इसी जगह से आतंकी कमांड और गतिविधियों को कंट्रोल किया जा रहा था। यहां हथियारों का स्टोर भी था। अमेरिका ने कहा कि हमास ने अस्पताल खाली करा लिया था और उसके संवेदनशील दस्तावेज जला दिए थे। नवंबर में इजरायली सेना ने अल शिफ़ा अस्पताल पर छापा मारा था। इस कदम की वैश्विक मानवतावादी संगठनों ने भारी आलोचना की थी। हालांकि छापे से पहले, इजरायली सेना ने अस्पताल के नीचे बने हमास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का वीडियो जारी किया था। आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत अस्पताल पर हमला नहीं किया जाता है, लेकिन यदि उनका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो फिर यह उन पर लागू नहीं होता है। गौरतलब है कि ७ अक्टूबर को गाजा के हमास आतंकी संगठन ने इजरायल पर अप्रत्याशित हमला बोला था और इसमें १२०० से अधिक लोग मारे गए थे जबकि कुछ लोगों का अपहरण कर लिया। इन बंधकों को छिपाने के लिए स्कूल और अस्पतालों का उपयोग किया था। इजरायल ने भी कड़ा जवाब देते हुए हमास पर हमला बोला और अब तक लड़ाई जारी है। हमास के गाजा इलाके में अब तक २२,००० लोगों की मौत हो चुकी है।

आतंकियों ने आम चुनाव के २ प्रत्याशियों को बनाया निशाना

–**लोकतांत्रिक कानून को पूरी तरह शरियत के खिलाफ बताया**

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान में आम चुनाव में बाधक आतंकवादी संगठनों ने अलग-अलग पार्टी के दो प्रत्याशियों पर हमला किया। हालांकि बुलेट पूफ वाहन होने की वजह से यह प्रत्याशी बच गए। इनमें से एक प्रत्याशी जमीयत उलेमा इस्लाम के कारीउल्लह हैं। चुनाव प्रचार के समय जाते हुए आतंकवादियों ने उनके रास्ते में बम रख दिया। इस बम धमाके से उनकी गाड़ी बुरे तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि कारी बच गए हैं। दूसरा हमला राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक मोमेंट के नेता मोहसिन ख़बर पर हुआ जहां चुनाव प्रचार के दौरान आतंकवादियों ने उनकी गाड़ी पर जमकर गोलियां बरसाईं।

इसके पहले आतंकवादियों ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि लोकतंत्र में यह लोग सभाओं में बैठकर कानून बनाते हैं जो पूरी तरह से इस्लामी शरियत के खिलाफ है। अल्लह ने अपने किसी पैगंबर को कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि कानून बनाने वाला तो केवल अल्लह ही है।

आतंकवादियों ने खुली धमकी देते हुए कहा था कि लोग चुनाव में भाग न लें और न ही चुनाव प्रचार रैलियां न करें अन्यथा अपने जान माल के नुकसान का सामना करना पड़ेगा।

ट्रंप की अपील कहा- मुझे मतदान करने का हक दीजिए

वाशिंगटन (एजेंसी)। रिपब्लिकन उम्मीदवार डेनल्ड ट्रंप ने शेना बेलोज के मेन फैसले के खिलाफ अपील करते हुए कहा है कि मुझे मतदान का हक मिलना चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को डेमोक्रेटिक सेनेटरी ऑफ स्टेट के उस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसमें उन्हें ६ जनवरी, २०२१ को प्रेषित कैपिटल पर हुए हमले में उनकी भूमिका के लिए मतदान से रोक दिया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोलोराडो मामले में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की उनकी पात्रता पर फैसला देने की अपील भी करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की अपील में यह कहा गया है कि बेलोज के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और अनुरोध किया गया है कि ५ मार्च के प्राथमिक मतदान में ट्रंप को शामिल किया जाए। अपील में तर्क दिया गया है कि शेना बेलोज ने अविश्वसनीय साक्ष्य पर भरोसा किया।ट्रंप के वकीलों ने लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ पूर्वाग्रह और राज्य के कानूनों को बनाए रखें।

मंगलवार को ट्रंप द्वारा कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह के फैसले के खिलाफ सीधे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की भी उम्मीद थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने कभी भी धारा ३ पर कोई निर्णय जारी नहीं किया है, और कोलोराडो अदालत

पाकिस्तान में चलती है हिंदू महिलाओं की दिलेरी, दौलत के साथ नाम भी कामाया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। ऐसे में जिस जगह पर हिंदू होना ही प्रताड़ना की गारंटी है, वहां पर अगर कोई महिला नाम और शोहरत कमाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में ऐसी ही दो महिलाएं हैं, जिन्होंने नाम के साथ भरपूर दौलत कमाई और अपनी दिलेरी के लिए जानी जाती है। पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति बेहद खराब होने के बावजूद इन दोनों महिलओं ने अपना आला मुकाम हासिल किया है। इनमें से एक तो राजनीति में रहकर नाम और पैसा दोनों ही कमा रही है। वहीं दूसरी महिला फिल्म इंडस्ट्री में झंडे गाड़ चुकी है। इनका नाम हिंदू होने के बाद भी पाकिस्तान में उज्जत से लिया जाता है। हिंदुओं को पाकिस्तान में समान अवसर नहीं मिलते हैं, बावजूद इसके संगीता उर्फ परवीन रिजवी की मिन्ती यहां की अमीर शख्सियतों में होती है। इनका जन्म आजादी के साल यानि १९४७ में कराची में हुआ था। उन्होंने १९६९ से ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्हें अपने हिंदू नाम की वजह से शुरू में परेशानी हुई, जिसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री में खुद को परवीन रिजवी का नाम दे दिया। आज वे मशहूर एक्ट्रेस और डायरेक्टर हैं। वे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सीरियल्स से लेकर बड़े बजट की फिल्मों तक का हिस्सा रही और इससे वेशुमार दौलत कमाई। ऐसी ही एक अन्य हिंदू महिला का नाम भी आता है, जिनकी गिन्ती पाकिस्तान के अमीर लोगों में होती है।



दोहराया कि उनका फैसला अपील के नतीजे आने तक रका हुआ है, जिसकी उम्मीद की गई थी। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे अपने निर्णय और कानून के शासन पर भरोसा है। यह मेन की प्रक्रिया है और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हममें से हर एक जो सरकार में सेवा करता है वह सविधान और राज्य के कानूनों को बनाए रखें।

मंगलवार को ट्रंप द्वारा कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह के फैसले के खिलाफ सीधे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की भी उम्मीद थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने कभी भी धारा ३ पर कोई निर्णय जारी नहीं किया है, और कोलोराडो अदालत

अगले महीने रकुल प्रीत सिंह लेंगी सात फेरे

काफी लंबे समय से अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और निर्माता - एक्टर जैकी भगनानी की शादी की खबरें सुनने को मिल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने अब शादी करने का फैसला कर लिया है और अगले महीने गोवा में शादी करने जा रहे हैं। इस समय रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी बैंकोंक में एक साथ छुट्टियां मना रहे हैं। चर्चा थी कि रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी साल 2023 में ही शादी करने वाले हैं, और जैकी भगनानी के पिता वासु भगनानी इस शादी को गैंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा कि शादी बहुत ही साधारण समारोह में अगले महीने 22 फरवरी को गोवा में होगी, जिसमें कुछ खास मेहमानों को ही आमंत्रित किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक जैकी भगनानी इस शादी को बहुत ही अंतरंग रखना चाहते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि भगनानी का परिवार बहुत निजी है और शादी को भी निजी रखना चाहते हैं। नए साल पर अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी बैंकोंक में बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। साल 2021 में रकुल सिंह के जन्मदिन पर जैकी भगनानी ने अपने प्यार का इजहार किया था। रकुल प्रीत सिंह ने भी जन्मदिन पर जैकी भगनानी के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करके अपने दिल की बात लिखी थी। रकुल प्रीत सिंह ने जैकी भगनानी को अपना सबसे अच्छा और स्पेशल गिफ्ट बताया था। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी की शादी की खबरें काफी लंबे समय से सुनने में आ रही हैं। साल 2023 में ही ऐसी चर्चा थी कि दोनों कपल शादी करने वाले हैं। और, जैकी भगनानी के पिता वासु भगनानी इस शादी को गैंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि 22 फरवरी 2024 को दोनों कपल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसमें कुछ खास मेहमानों को ही आमंत्रित किया जाएगा। जैकी भगनानी इस शादी को निजी रखना चाहते हैं। हालांकि इस बारे में जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है।



अदिति राव हैदरी ने न्यू ईयर पर सिद्धार्थ संग कंफर्म किया रिलेशन



एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी पिछले कुछ समय से साउथ एक्टर सिद्धार्थ के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बनी हुई थीं। अब आखिरकार लंबे समय बाद एक्ट्रेस ने नए साल पर सिद्धार्थ संग अपने रिश्ते को कंफर्म कर दिया है। अपने रिश्ते पर मुहर लगाते हुए अदिति ने एक रोमांटिक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें फैंस खूब लाइक कर रहे हैं। 37 साल अदिति राव हैदरी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों कैमरे के लिए रोमांटिक पोज दे रहे हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'खुश, धन्य और आभारी। जादुई खुशी, प्यार, हसी, यूनिफॉर्म और फेयरी डस्ट के लिए। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। अदिति और सिद्धार्थ की इस तस्वीर को फैंस जमकर लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने कहा, तो यह ऑफिशियल हो गया। दूसरे ने कहा, बढ़िया चॉइस है। आप दोनों एक-दूसरे को डिजर्व करते हैं। ऐसे ही अन्य कईयों ने भी कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें, सिद्धार्थ संग रिलेशनशिप में आने से पहले अदिति राव हैदरी ने 21 साल की उम्र में पूर्व वकील और एक्टर सत्यदीप मिश्रा से शादी कर चुकी है।

सालार की उग्रम से तुलना पर प्रशांत नील ने तोड़ी चुप्पी

डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म सालार पार्ट 1 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इसने ताबड़तोड़ कमाई की है। और कर भी रही है। मगर कुछ है इसकी आलोचना कर रहे हैं। साथ ही उग्रम से तुलना कर रहे हैं। इस पर अब निर्देशक ने रिप्लाइ किया है। प्रशांत नील ने सालार के बारे में अपनी राय रखी है। 13 17.62 करोड़ देशभर में और 556.84 करोड़ वर्ल्डवाइड कमा चुकी सालार ब्लॉकबस्टर साबित हो गई है। प्रशांत नील की डायरेक्टर्ड इस मूवी ने शाहरुख खान की डंकी को भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पछाड़ दिया है। 122 दिसंबर को सिनेमाघरों में उतरी इस मूवी की जहां वाहवाही हो रही है। वहीं, कुछ इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। अब इस पर निर्देशक ने अपने विचार रखे हैं। उन्होंने क्या कहा है, आइए बताते हैं। एंटरटेनमेंट पोर्टल पिकविला को दिए एक इंटरव्यू में प्रशांत नील ने कहा कि उनका इरादा कभी भी कॉम्प्लेक्स स्टोरी बनाने का नहीं था। उन्होंने कहा कि सालार-पार्ट 1-सीजफायर एक बहुत बड़ी फिल्म की शुरुआत मात्र है। फिल्म निर्माता ने कहा कि यह छह घंटे की फिल्म के पहले 3 घंटे थे, जो मैं लेकर आया हूँ, और मैं वहां एक भी ऐसा किरदार नहीं रखूंगा, जो पूरी कहानी के लिए मायने नहीं रखता हो। जब सालार 2 आएगी, तब सबकुछ समझ आएगा।

सालार की आलोचना पर प्रशांत नील प्रशांत नील ने यह भी कहा कि उनका ये विचार बिल्कुल नहीं था कि वह कहानी को इतना मुश्किल कर दें कि लोगों को समझ ही न आए। उन्होंने आगे बताया कि वह सोशल मीडिया पर नहीं हैं, इस कारण लोगों की फिल्म के प्रति आलोचनाओं को पर्सनली पढ़ नहीं सके। लेकिन दोस्तों और परिवार के लोगों ने उन्हें इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह इस फीडबैक से कुछ सीखेंगे। और अपनी अगली फिल्म के साथ बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे।

उग्रम से तुलना पर प्रशांत नील बोले इसके अलावा प्रशांत नील ने सालार और उग्रम के बीच तुलना पर अपनी चुप्पी तोड़ी और साफ किया कि तुलना का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने उग्रम की पूरी कहानी 2 घंटे और 14 मिनट में बता दी थी। मैं 6 घंटे की फिल्म (सालार पार्ट 1 और सालार पार्ट 2) बना रहा हूँ। मैं उग्रम को इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। मेरा बेसिक आइडिया ये था कि मैं चाहता था कि लोग उस भावना को बड़े पर्दे पर देखें। यही एकमात्र कारण है कि मुझे उग्रम करना पड़ा। मेरे पास कई दूसरे सबजेक्ट हैं, जिन्हें मैं पहले ही सुना चुका हूँ और लोगों को पसंद भी आया है। लेकिन मैं कुछ ऐसा ही दिखाना चाहता था। और अगर ये नेगेटिव है तो ये बहुत ही छोटा हिस्सा होगा।

फाइटर को पठान जैसा प्यार मिलने की उम्मीद जता रहे सिद्धार्थ आनंद

बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद इन दिनों लगातार चर्चा में हैं। उनकी फिल्म फाइटर जनवरी में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले साल के पहले महीने में उनकी फिल्म पठान रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान की इस फिल्म ने उस समय कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। साथ ही, यह सिद्धार्थ के करियर की भी सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। अब निर्देशक, दर्शकों के लिए देशभक्ति से भरपूर फिल्म फाइटर लेकर आ रहे हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आने वाली है। वहीं, इसमें अनिल कपूर और करण सिंह ग्रोवर भी दिखने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर सिद्धार्थ को काफी

उम्मीदें हैं। निर्देशक ने आशा व्यक्त की है कि इसे भी वैसा ही प्यार मिलेगा जैसा जनता ने पठान को दिया था। सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। एक लंबे नोट में उन्होंने लिखा, जैसे ही नया साल करीब आया तो पीछे मुड़कर देखा। साल 2023 ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। निर्देशक ने आगे लिखा, पहला शो अभी शुरू ही हुआ था। ममता और मैंने अपने मित्र जयु के घर जाने और सार्वजनिक समीक्षाओं की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। जैसे ही हम उनकी छत पर बैठे, समीक्षाएं आने लगीं। सर्वसम्मति से इसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया। इसके बाद मैं अब और नहीं बैठ सकता था। मैंने एक थिएटर में जाकर प्रतिक्रियाएं देखने का निर्णय लिया।



फाइटर के मेकर्स से नाराज हैं दीपिका पादुकोण

ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर इस महीने 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। 250 करोड़ में बनी इस फिल्म का टीजर जारी कर दिया जा चुका है, हालांकि फिल्म को कोई बज नहीं है। इससे मेकर्स चिंतित हैं। फिल्म के टीजर और गाने को मिले टंडे रिव्यूशन से मेकर्स ने अब प्रमोशन एक्सपेंस पर लिमिट लगा दी है। हाइप क्रिएट करने के लिए मेकर्स चाहते थे कि शाहरुख फिल्म में कैमियो करें, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया है। वहीं दीपिका पादुकोण भी मेकर्स से नाराज हैं।

शाहरुख ने क्यों किया फाइटर में कैमियो करने से इनकार?
हाल ही में आई रेंटि की रिपोर्ट के अनुसार, फाइटर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख खान से रिक्स्ट की थी कि वो फिल्म में कैमियो करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। रिपोर्ट की मानें तो शाहरुख फिल्म के जॉनर की वजह से इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं।

दीपिका पादुकोण भी हैं मेकर्स से नाखुश
रेंटि की रिपोर्ट की मानें तो दीपिका पादुकोण भी फिल्म फाइटर के मेकर्स से नाखुश हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म को चर्चा में लाने के लिए मेकर्स का पूरा फोकस सिर्फ ऋतिक रोशन पर है। टीजर के बाद भी सिर्फ ऋतिक की मामूली चर्चा हुई और दीपिका का कहीं कोई जिक्र नहीं है।

कई सेलेब्स ने प्रमोशन में मदद करने से किया इनकार
रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म फाइटर के गाने शेर खुल गए से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन गाना भी चर्चा में नहीं रहा। ऐसे में मेकर्स चाहते थे कि बैंग-बैंग सॉन्ग चैलेंज की तरह इस गाने को सेलेब्स की मदद से प्रमोट किया जाए। मेकर्स ने कई सेलेब्स से अप्रोच की थी कि वो इस गाने का इस्तेमाल कर वीडियो बनाएं, लेकिन कई सेलेब्स ने ये कहते हुए प्रमोशन से इनकार कर दिया कि वो पहले फिल्म का ट्रेलर देखना चाहेंगे। अब प्रमोशन के लिए ट्रेलर का इंतजार है।

फिल्म से नाखुश हैं स्टूडियो हेड
रेंटि के सूत्र की मानें तो टीजर और गाना रिलीज होने के बाद स्टूडियो हेड काफी नाखुश हैं। मेकर्स का मानना था कि टीजर से बज बनेगा और गाने से फिल्म चर्चा में रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब स्टूडियो फिल्म के प्रमोशन में ज्यादा खर्च करने से झिझक रहा है। अब मेकर्स को सिर्फ ट्रेलर और दूसरे गानों से उम्मीदें हैं।

आसान नहीं था शाहरुख के साथ रोमांस करना

शाहरुख बहुत ही मिलनसार स्वाभाव के इंसान हैं। उन्हें जरा भी नहीं लगता कि वे इतने बड़े स्टार हैं। मैं जब उनसे मिली तब बार-बार खुद को झकझोर कर यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि यही सच है, शाहरुख खान मेरे सामने हैं। मैं उनके साथ फिल्म में काम कर रही हूँ।

डंकी फिल्म में पहली बार तापसी पन्नू ने शाहरुख खान के साथ किया है। फिल्म में उनकी और शाहरुख की जबरदस्त केमेस्ट्री ने दर्शकों की खूब तारीफें बटोरी हैं। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तापसी और शाहरुख की रोमांटिक जोड़ी को भले ही दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन तापसी के लिए फिल्म में शाहरुख के साथ रोमांस करना बिल्कुल आसान नहीं था। तापसी शाहरुख के साथ फिल्म में किए रोमांस के बारे में बात करते हुए कहती हैं, मेरे लिए शाहरुख खान के साथ रोमांस करना बहुत मुश्किल था। शूटिंग के शुरुआती दिनों में मैं जब भी उनकी तरफ देखती थी। तब वे प्यार से मेरी तरफ देख रहे होते थे। अब ऐसे में कोई भी कोई भी रोमांटिक दृश्य उनके साथ फिल्माना बिना फॉजन हुए नामुमकिन था। शाहरुख जब आपकी तरफ प्यार से देखते हैं। तब आपको उनकी सभी क्लासिक रोमांटिक फिल्में याद आने लगती हैं, जब हकीकत में वही इंसान आपके सामने आपके साथ रोमांस कर रहा हो तब आप कैसे नहीं फॉज होगी। शाहरुख के साथ काम करने के अनुभव को साझा करते हुए तापसी बताती हैं, आप उनकी रोमांटिक फिल्में देख चुके होते हैं। आपको पता होता है कि पर्दे पर वो कैसे दिखते हैं, कैसे प्यार करते हैं, लेकिन जब आप उनसे हकीकत में मिलते हैं, तब भी वे उतने ही प्यार से आपको मिलते हैं। शाहरुख बहुत ही मिलनसार स्वाभाव के इंसान हैं। उन्हें जरा भी नहीं लगता कि वे इतने बड़े स्टार हैं। मैं जब उनसे मिली तब बार-बार खुद को झकझोर कर यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि यही सच है, शाहरुख खान मेरे सामने हैं। मैं उनके साथ फिल्म में काम कर रही हूँ।

